



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2882]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

No. 2882]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSHA 3, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 2013

का.आ.3800 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 326 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के हसन और दक्षिण कन्नड़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के 189.500 कि.मी. से 328.000 कि.मी. (हासन—बंटवाल सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 27 मार्च, 2013 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया" और तारीख 27 मार्च, 2013 को "प्रजावाणी" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने कुछ पर आंशिक रूप से विचार कर लिया है और कुछ को आंशिक रूप से अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के 189-500 कि०मी० से 235-100 कि०मी० तक ईचनहल्लि से कुंबर्डि काफि एस्टेट (हासन से बी. सी. रोड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण I संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमी.में)	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.हासन	1. हासन	1. ईचनहल्लि	25/4C	निजी	शुष्क	51	गोविंदगौड़ा, पुत्र-रंगगौड़ा
				26/1	निजी	एनएके	1821	कोठारी मद्रास लिमिटेड
				26/2A	निजी	शुष्क	304	1. वेंकटरमणगौड़ा, पुत्र-तिम्मारायीगौड़ा अलियास मादप्पागौड़ा 2. तिरुमलाशेट्टी, पुत्र-रंगशेट्टी 3. रंगगौड़ा, पुत्र-बसवेगौड़ा 4. मुडलगिरिगौड़ा, पुत्र-तिरुमलेगौड़ा 5. रंगगौड़ा, पुत्र-बसवेगौड़ा
				26/2B 1	निजी	शुष्क	1113	1. रंगशेट्टी, पुत्र-हनुमंतशेट्टी 2. शकुनशेट्टी, पुत्र-हनुमंतशेट्टी 3. केंचशेट्टि अलियास रंगस्वामी, पुत्र-हनुमंतशेट्टी 4. रंगस्वामी, पुत्र-हनुमंतशेट्टी 5. जयम्मा, पत्नी-रंगशेट्टी 6. रंगशेट्टी, पुत्र-लक्ष्मणाशेट्टी 7. रामशेट्टी, पुत्र-लक्ष्मणाशेट्टी
				26/2B 2	निजी	शुष्क	3	1. के. एन. नरसिम्हगौड़ा, पुत्र-शिवेगौड़ा 2. बी. रंगगौड़ा, पुत्र-बसवेगौड़ा
				28/2	निजी	शुष्क	253	एस. लीलावती, पत्नी-सिद्धरामगौड़ा
				28/1	निजी	शुष्क	405	1. बी. सी. उषारानी, पत्नी-डी. वी. कुमारैय्या 2. नागेन्द्र, पुत्र-दासेगौड़ा 3. पुट्टराजू, पुत्र-दासेगौड़ा 4. मंजुनाथ, पुत्र-दासेगौड़ा 5. लीलावती, पत्नी-सिद्धरामगौड़ा
				29/7	निजी	नमी	607	बी. सी. उषारानी, पत्नी-कुमारैय्या
				35	निजी	शुष्क	911	1. रंगगौड़ा,

								पुत्र-रंगेगौड़ा
								2. नंजेगौड़ा, पुत्र-रंगेगौड़ा
			36/7B	निजी	शुष्क	101		नरसिम्हैया, पुत्र-मुनिस्वामप्पा
			40/2A	निजी	शुष्क	202		सी. अश्वत्तनारायणा, प्रबंधक
			40/2B	निजी	शुष्क	455		एम. नरसिम्हैया, पुत्र-मुनिस्वामप्पा
			40/1	निजी	शुष्क	202		सी. अश्वत्तनारायणा, प्रबंधक
			41/1A	निजी	शुष्क	708		सी. अश्वत्तनारायणा, प्रबंधक
			41/1B	निजी	शुष्क	455		के. वी. गोपूकुमार, पुत्र-दिवंगत परमेश्वरैया
			43	सरकारी	खराब	658		सरकारी बीलू
			42	निजी	शुष्क	202		1. मुडलैया, पुत्र-जवरैया 2. मंजुला, पत्नी-देवराजू
			39/1A	निजी	शुष्क	101		1. सी. अश्वत्तनारायणा, प्रबंधक 2. सी. अश्वत्तनारायणा, पुत्र-चिन्नप्पा 3. धर्मराज, पुत्र-गोविंदेगौड़ा
			39/2	निजी	एनएके	152		वैकटप्पा, पुत्र-मंजप्पा
			45/1	सरकारी	शुष्क	809		निदेशक मास एडंकेशन, कर्नाटक सरकार
			45/2	निजी	शुष्क	202		1. सी. अश्वत्तनारायणा, पुत्र-चिन्नप्पा 2. रंगेगौड़ा, पुत्र-वैकटगौड़ा
			44/2	निजी	शुष्क	25		सी. अश्वत्तनारायणा, पुत्र-चिन्नप्पा
			47	सरकारी	खराब	7255		एनएच-48 यागची नदी पुल के लिए अर्जित भूमि
			48	सरकारी	वृक्षारोपण	2805		सरकारी तोपू
			नदी	सरकारी	नदी	1785		यागची होले
			2.तिम्मनहल्लि	9	निजी	शुष्क	405	एनएच-48 के लिए अर्जित भूमि
				10	सरकारी	खराब	1012	सरकारी खराब
				11/1	सरकारी	खराब	2529	1. सरकारी खराब
				पुरानी सड़क	सरकारी	सड़क	607	सरकारी सड़क.2
				1/6	निजी	शुष्क	405	1. ध्यावेगौड़ा 2. तिम्मम्मा 3. तिम्मेगौड़ा के पुत्र 4. तिम्मेगौड़ा का दामाद
				1/5	सरकारी / निजी	सड़क / शुष्क	405	होंबालम्मा, पत्नी-दिवंगत चन्नेगौड़ा
				1/3	सरकारी / निजी	सड़क / शुष्क	2023	चन्नम्मा, पत्नी-तिम्मेगौड़ा

				1/2	सरकारी / निजी	सड़क / शुष्क	304	1. रंगेगौड़ा, पुत्र-मुडलिगौड़ा
								2. जयम्मा, पत्नी-गौड़ेगौड़ा
				1/1	सरकारी / निजी	सड़क / शुष्क	202	1. रंगेगौड़ा, पुत्र-तिम्मेगौड़ा
								2. वेंकटेगौड़ा, पुत्र-पुट्टेगौड़ा
								3. तिम्मम्मा, पत्नी-वेंकटेगौड़ा
								4. तिम्मेगौड़ा, पुत्र-पुट्टेगौड़ा
				1/8	निजी	शुष्क	100	1. लक्ष्मम्मा, पत्नी-पुट्टेगौड़ा
								2. तिम्मम्मा, पत्नी-वेंकटेगौड़ा
				2/3	निजी / सरकारी	शुष्क	101	1. गिडुम्मा, पत्नी-वेंकटेगौड़ा
								2. केशवेगौड़ा, पुत्र-वेंकटेगौड़ा
								3. चन्मम्मा, पत्नी-तिम्मेगौड़ा
								4. सन्नेगौड़ा, पुत्र-तिम्मेगौड़ा
								5. होंबालम्मा, पत्नी-दिवंगत चन्नेगौड़ा
				सड़क.1	सरकारी	सड़क-1	607	सरकारी पुरानी सड़क.1
				सड़क.2	सरकारी	सड़क-2	405	सरकारी पुरानी सड़क (वोनी)
		2. आलूर	1. मावनूर	87/3	निजी	शुष्क	25	गिडुम्मा, पत्नी-सन्नेगौड़ा
				87/2	निजी	शुष्क	1518	1. टी. एस. रंगेगौड़ा, पुत्र-सन्नेगौड़ा
								2. चन्नेगौड़ा, पुत्र-सन्नेगौड़ा
								3. कृष्णेगौड़ा, पुत्र-रंगेगौड़ा
								4. गौरम्मा, पत्नी-गिडुगौड़ा
								5. तिम्मेगौड़ा, पुत्र-ध्यावेगौड़ा
								6. अब्दुल मजीद खान, पुत्र-के. मोहियुद्दीन खान
								7. नीलम्मा, पत्नी-मोगण्णगौड़ा
								8. जी. एस. विक्रम, पुत्र-जी. ई. सुरेन्द्र
								9. के. पी. सत्यभामा, पत्नी-गुंडप्पाजी अलियास एच. आर. रामू
								10. रंगस्वामी
								11. रंगेगौड़ा
								12. मोगण्णगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
				87/4	निजी	शुष्क	690	1. नीलम्मा, पत्नी-मोगण्णागौड़ा

							2. गिडुम्मा, पत्नी—इयण्णा
							3. होंबालम्मा, पत्नी—चन्नेगौड़ा
			87/5	निजी	शुष्क	690	1. एच. आर. महादेवा, पुत्र—के. सी. रंगप्पा
							2. के. पी. सत्यभामा, पत्नी—एच. आर. गुंडप्पाजी
			86	निजी	शुष्क	101	1. एच. आर. महादेवा, पुत्र—के. सी. रंगप्पा
							2. के. पी. सत्यभामा, पत्नी—एच. आर. गुंडप्पाजी अलियास एच. आर. रामू
							3. जी. एस. विक्रम, पुत्र—जी. ई. सुरेन्द्र
			85	निजी	शुष्क	3743	2. के. पी. सत्यभामा, पत्नी—एच. आर. गुंडप्पाजी अलियास एच. आर. रामू
			84	निजी	शुष्क	4660	1. एम. एस. चन्नाबासवैय्या, पुत्र—सिद्धलिंगेय्या
							2. शिवैय्या, पुत्र—दिवंगत पुट्टास्वामैय्या
							3. बसवैय्या, पुत्र—ईरतैय्या
							4. शिवप्रकाश, पुत्र—चन्नबसवैय्या
							5. गंगम्मा, पत्नी—सिद्धप्पा
							6. चन्नम्मा, पत्नी—रुद्रैय्या
							7. बासवाराजैय्या, पुत्र—रुद्रैय्या
							8. सिद्धलिंगेय्या, पुत्र—सिद्धलिंगेय्या
							9. शिवबासवैय्या, पुत्र—सिद्धलिंगेय्या
							10. एम. एस. बासवैय्या
							11. चन्नबसवैय्या, पुत्र—रुद्रैय्या
			93/7	निजी	शुष्क	708	1. वीरभद्रगौड़ा, पुत्र—रुद्रगौड़ा
							2. पुष्पेगौड़ा, पुत्र—रुद्रगौड़ा
							3. बासवालिंगप्पा, पुत्र—रुद्रगौड़ा
			93/8	निजी	शुष्क	800	1. रुद्रगौड़ा, पुत्र—शिवेगौड़ा
							2. एम. एस. गुरुसिद्धप्पा, पुत्र—शिवेगौड़ा
							3. शिवकुमार, पुत्र—रुद्रगौड़ा
			93/3	निजी	शुष्क	920	1. वीरभद्रगौड़ा,

							पुत्र—रुद्रेगौड़ा
							2. पुष्पेगौड़ा, पुत्र—रुद्रेगौड़ा
							3. बासवालिंगप्पा, पुत्र—रुद्रेगौड़ा
			95	निजी	शुष्क	180	1. शिवेगौड़ा, पुत्र—ईरेगौड़ा
							2. लौकेश, पुत्र—रुद्रेगौड़ा
							3. धर्मा, पुत्र—रुद्रेगौड़ा
							4. शिवकुमारा, पुत्र—रुद्रेगौड़ा
							5. मल्लेगौड़ा, पुत्र—गुरुसिद्धप्पा
							6. चंद्रशेखर, पुत्र—गुरुसिद्धप्पा
			96/2A 1	निजी	शुष्क	25	राजशेखर, पुत्र—ओंकारैय्या
			97	सरकारी / निजी	खराब / शुष्क	900	सरकारी गोमल
			98/2	निजी	शुष्क	560	पटेल ईरेगौड़ा, पुत्र—चेन्नेगौड़ा
			99	निजी	शुष्क	665	पटेल ईरेगौड़ा, पुत्र—चन्नेगौड़ा
							मुस्लिम संगठन कब्रिस्तान
			104	सरकारी	खराब	1518	हेतवा कट्टे
			103/1	निजी	शुष्क	607	एम. एस. मोहम्मद खान, पुत्र—दिवंगत सालार बेग
			101/1	निजी	शुष्क / एनएके	2125	के. के. लौकेश, पुत्र—करिगौड़ा
			101/2	निजी	शुष्क	7284	के. के. लौकेश, पुत्र—करिगौड़ा, ऐलिनेटेड
			100/2	निजी	नमी	220	कल्याणम्मा, पत्नी—पुट्टस्वामीगौड़ा
			100/1	निजी	नमी	675	1. ध्यावेगौड़ा, पुत्र—अण्णेगौड़ा
							2. तिम्लेगौड़ा, पुत्र—अण्णेगौड़ा
							3. बी. ए. अण्णेगौड़ा, पुत्र—अण्णेगौड़ा
							4. सरोजम्मा, पत्नी—दिवंगत अण्णेगौड़ा
			92	निजी	शुष्क	4905	1. एम. एस. चन्नबसवैय्या, पुत्र—सिद्धलिंगैय्या
							2. बसवैय्या, पुत्र—ईरतैय्या
							3. शिवप्रकाश, पुत्र—चन्नबसवैय्या
							4. गंगाम्मा, पत्नी—एस. सिद्धप्पा
							5. विश्वनाथा, पुत्र—बसवैय्या
							6. चिन्नस्वामी, पुत्र—एम.

								23. राजेगौड़ा, पुत्र-अज्जेगौड़ा
			2. भरतवल्लि	12	निजी	शुष्क	101	बी. के. रामेगौड़ा, पुत्र-कालेगौड़ा
				118/2 A	निजी	शुष्क	115	1. हनुमंतेगौड़ा, पुत्र-पुहेगौड़ा
								2. कृष्णेगौड़ा, पुत्र-पुहेगौड़ा
								3. मास्तिगौड़ा, पुत्र-पुहेगौड़ा
								4. बैरेगौड़ा, पुत्र-पुहेगौड़ा
								5. श्रीनिवास, पुत्र-पुहेगौड़ा
				118/1 B4	निजी	शुष्क	185	रमेश, पुत्र-तिम्मेगौड़ा
				118/1 B3	निजी	शुष्क	585	रंगेगौड़ा अलियास रंगास्वामी, पुत्र-तिम्मेगौड़ा
				118/1 B5	सरकारी	नाला	225	यागची नाला के लिए अर्जित
				118/1 B2	निजी	शुष्क	30	रंगेगौड़ा अलियास रंगास्वामी, पुत्र-तिम्मेगौड़ा
				118/1 A	निजी	शुष्क	3743	1. बी. आर. कृष्णेगौड़ा, पुत्र-रंगेगौड़ा
								2. ईरम्मा, पत्नी-मंजेगौड़ा
				116	निजी	शुष्क	3425	1. मोहम्मद जाफर, पुत्र-शरीफ
								2. रंगेगौड़ा, पुत्र-करिगौड़ा
								3. निगम्मा, पत्नी-करिगौड़ा
								4. सोमेगौड़ा, पुत्र-निगेगौड़ा
								अण्णप्प गौड़ा, पुत्र-निगेगौड़ा
								निगेगौड़ा अलियास चन्द्रेगौड़ा, पुत्र-निगेगौड़ा
								बी. के. पुहेगौड़ा, पुत्र-कालेगौड़ा
								बी. पी. गिरीश
								बी. पी. रमेश
								बी. पी. कांतराज, पुत्र-पुहेगौड़ा
				114/1	निजी	शुष्क	55	1. ग्रामताणा बंजारु 2. भाषासाब, पुत्र-जमालसाब
				112/3	निजी	शुष्क	25	मुडलिगिरीगौड़ा, पुत्र-कालेगौड़ा
				112/4	निजी	शुष्क	25	मल्लम्मा, पत्नी-बी. के. तिम्मेगौड़ा
				112/5	निजी	शुष्क	100	बी. टी. योगेश, पुत्र-बी. के. तिम्मेगौड़ा
				112/1	निजी	शुष्क	115	बी. टी. रंगस्वामी, पुत्र-बी. के. तिम्मेगौड़ा

				113	सरकारी	खराब	140	सरकारी गुण्डू तोपू
				106	निजी	शुष्क	710	एच. पी. अशोक कुमार, पुत्र—पुट्टस्वामीगौड़ा
			3. यडूरु	88/2	निजी	शुष्क	1416	वाई. एस. बालगंगाधर, पुत्र—दिवंगत वाई एस. शिवबसप्पा
				88/5	निजी	शुष्क	1113	अब्दुल कयाम, पुत्र—दिवंगत मुसरा जा
				91/2	निजी	शुष्क	1720	अब्दुल कयाम, पुत्र—दिवंगत मुसरा जा
				91/1	निजी	शुष्क	1315	1. वाई एस. प्रकाश, पुत्र—वाई. एस. शांतप्पा
								2. वाई. एस. दिनेश, पुत्र—वाई. एस. शांतप्पा
				92/1	निजी	शुष्क	965	सी. एम. हेमाक्षी, पत्नी—बी. जी. शिवलिंगप्पा
				92/3	निजी	शुष्क	650	एच. बी. गोपाल अलियास गोपालकृष्णा, पुत्र—दिवंगत दासगौड़ा
				92/2	निजी	शुष्क	545	1. बी. जी. सर्वमंगला, पुत्री—गुरुसिद्धप्पा
								2. बी. जी. कमला, पुत्री—गुरुसिद्धप्पा
								3. बी. जी. सुशीला, पुत्री—गुरुसिद्धप्पा
								4. बी. जी. नेत्रावती, पुत्री—गुरुसिद्धप्पा
								5. बी. जी. गंगाधरप्पा, पुत्र—दिवंगत पटेल बी. एम. गुरुसिद्धप्पा
								6. बी. जी. प्रदीप, पुत्र—गंगाधरप्पा
								7. बी. जी. किरण, पुत्र—गंगाधरप्पा
								8. वाई. एस. प्रकाश, पुत्र—वाई. एस. शांतप्पा
								9. वाई. एस. दिनेश, पुत्र—वाई. एस. शांतप्पा
				92/6	निजी	शुष्क	595	सुशीलाम्मा, पत्नी—एम. एस. गंगाधरप्पा
				92/4	निजी	शुष्क	1030	सुशीलाम्मा, पत्नी—एम. एस. गंगाधरप्पा
				93/6	निजी	शुष्क	1170	1. अकबर खान, पुत्र—ईमाम खान
								2. नीलेश, पुत्र—वीरभद्रेगौड़ा
				93/5	निजी	शुष्क	665	एम. एम. अब्दुल खालिक साहेब, पुत्र—जमाद साहेब
				93/4	निजी	शुष्क	580	असलम खान, पुत्र—गौज़ खान
				93/3	निजी	शुष्क	455	अब्दुल बहार, पुत्र—ईमाम साहेब
				93/2	निजी	शुष्क	325	मोहम्मद महाजन, पुत्र—गुलाम रशीद

				95/1	निजी	शुष्क	1345	एस. एम. विश्वनाथ, पुत्र—दिवंगत एस. आर. मल्लप्पा
				95/2	निजी	शुष्क	607	मोहम्मद जफर सादिक
				94/1	निजी	शुष्क	2428	मोहम्मद जफर सादिक, पुत्र—मोहम्मद बुदन साहेब ऐलिनेटेड भूमि
				94/2	निजी	शुष्क	708	मोहम्मद जफर सादिक, पुत्र—मोहम्मद बुदन साहेब ऐलिनेटेड भूमि
			4. नेरेलेकरे	11/3	निजी	शुष्क	4165	गुरुसिद्देगौड़ा, पुत्र—अन्नेगौड़ा
				9/1	निजी	शुष्क	2280	गुलाम मोहम्मद वजीर, पुत्र—गुलाम रशीद
				9/2	निजी	शुष्क	385	हीना मोहियुद्दिन मजहर, पत्नी—गुलाम मोहम्मद
				10	निजी	शुष्क	250	1. सिंगम्मा, पत्नी—दिवंगत रंगैय्या 2. एन. आर. रंगैय्या, पुत्र—रंगैय्या 3. रंगैय्या, पुत्र—रंगैय्या
				45/1	निजी	शुष्क	1410	पुट्टम्मा, पत्नी—एन. एम. शिवप्पा
				45/2	निजी	शुष्क	1490	निंगम्मा, पत्नी—गुरुपादप्पा
				55/5	निजी	शुष्क	1922	राजम्मा, पत्नी—सोमशेखरा
				55/4	निजी	शुष्क	360	1. मोहम्मद साब 2. अब्दुल रहमान, पुत्र—मुस्तफ
				56/2	निजी	शुष्क	1315	गुरुसिद्दप्पा, पुत्र—अन्नेगौड़ा
				56/1	निजी	शुष्क	708	1. जयम्मा, पत्नी—दिवंगत पुट्टेगौड़ा 2. शिवरामू, पुत्र—दिवंगत पुट्टेगौड़ा 3. सुरेश, पुत्र—दिवंगत पुट्टेगौड़ा
				57/14	निजी	शुष्क	25	मंजम्मा, पत्नी—रंगेगौड़ा
				57/19	निजी	शुष्क	51	एन. के. कालेगौड़ा, पुत्र—कम्पेगौड़ा
				57/18	निजी	शुष्क	94	सुमित्रा, पत्नी—नागराज
				57/17	निजी	शुष्क	126	मंजेगौड़ा, पुत्र—हनुमेगौड़ा
				57/4	निजी	शुष्क	1518	एच. वी. पुट्टराजू, पुत्र—एच. टी. वेंकटेश
				57/1	निजी	शुष्क	809	मंजेगौड़ा, पुत्र—हनुमेगौड़ा
				65/1	निजी	शुष्क	506	जयकुमार, पत्र—सोमेगौड़ा
				66/1	निजी	शुष्क	165	कम्पेगौड़ा, पुत्र—गिद्देगौड़ा कम्पेगौड़ा, पुत्र—गिद्देगौड़ा
				66/2	निजी	शुष्क	25	1. चंद्रम्मा, पत्नी—नीलकंठप्पा 2. नागभूषण 3. एन. एन. कुमार

				71/1	निजी	शुष्क	304	जी. वी. नागशंकर, पुत्र—जी. वी. वेकटचलशेटी
				71/2	निजी	शुष्क	51	एन. के. जगदीश, पुत्र—कट्टिगेगौड़ा
				71/4	निजी	शुष्क	306	डी. वी. सुलोचना, पत्नी—दिवंगत एन. एल. अप्पाजीगौड़ा
				71/3	निजी	शुष्क	650	एन. सी. योगेश, पुत्र—एन. के. लक्षणगौड़ा
				ग्रामीण क्षेत्र	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	735	अब्दुल रहमान, पुत्र—मुस्तफा बैरी
				1/3	निजी	शुष्क	607	रुद्रेगौड़ा, पुत्र—शांतप्पा
				2	निजी	शुष्क	809	ईसम्मा, पत्नी—मुस्तफा बैरी
				3	निजी	शुष्क	51	1. तिम्मैया, पुत्र—रंगैया 2. दासैया, पुत्र—कंगैया 3. ईरैया, पुत्र—ईरैया 4. पुट्टैया, पुत्र—शकुनैया 5. शकुनैया, पुत्र—रंगैया
				4/1	निजी	शुष्क	300	निंगम्मा, पत्नी—गुरुपादप्पा
				4/2	निजी	नमी	275	1. एन. वी. तम्मन्नागौड़ा, पुत्र—वीरभद्रप्पा 2. कांतराजू एन. सी., पुत्र—एन. वी. चंद्रशेखरैया
				5	सरकारी	टंकी	202	कल्लूकट्टे केरे
				8/1	निजी	शुष्क	265	फामिदा खातून, पत्नी—अब्दुल लतीफ
				8/2	निजी	शुष्क	30	गौराम्मा, पत्नी—एन. एम. ईरप्पा
				92	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	51	सरकारी गोमला
			5. चौवलगेरे	40	निजी	शुष्क	151	1. महंतेगौड़ा, पुत्र—मल्लेगौड़ा 2. शिवप्पा, पुत्र—पुट्टास्वामीगौड़ा
				28	निजी	शुष्क	101	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा
				29	निजी	शुष्क	55	शबीर अहमद, पुत्र—शेख मोहम्मद
				27/2	निजी	शुष्क	859	1. रियाज़ अहमद, पुत्र—शेख अहमद 2. शबीर अहमद, पुत्र—शेख अहमद
				27/1	निजी	शुष्क	405	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा
				30	निजी	शुष्क	525	नजीर अहमद, पुत्र—शेख अहमद
				21/1	निजी	नमी	140	सुधाकरा, पुत्र—नंजुंडस्वामी अलियास जयण्णा
				22/2	निजी	शुष्क	1720	साकम्मा, पत्नी—पुट्टस्वामीगौड़ा

				23	निजी	शुष्क	2529	महंतेगौड़ा, पुत्र—सी. आर. रामेगौड़ा
				24	निजी	शुष्क	145	महंतेगौड़ा, पुत्र—मल्लेगौड़ा
				16/1	निजी	शुष्क	911	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा
				76/1	निजी	शुष्क	1600	1. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा 2. मल्लम्मा, पुत्नी—मल्लेगौड़ा 3. भाग्य मोहनकुमार अलियास भाग्य, पत्नी—मोहनकुमार
				77	निजी	शुष्क	725	1. सी. वी. रुद्रप्पा, पुत्र—वीरेगौड़ा 2. शडक्षरि, पुत्र—वीरेगौड़ा
				112	निजी	शुष्क	506	1. वीरभद्रैया 2. वीरभद्रैया, पुत्र—रुद्रैया 3. देवराजू 4. कुमारास्वामी, पुत्र—ध्यावम्मा 5. शडक्षरि, पुत्र—वीरेगौड़ा
				ग्रामीण क्षेत्र	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	430	ग्रामताणा सरकारी
				111/6	निजी	शुष्क	2905	1. सी. एम. गुरुमूर्ति, पुत्र—सी. आर. महंतेगौड़ा 2. सी. वी. शडक्षरि, पुत्र—इरेगौड़ा
				111/5	निजी	शुष्क	2125	1. सी. एम. नागराज, पुत्र—महंतेगौड़ा 2. सी. एम. शंकरप्पा, पुत्र—महंतेगौड़ा
				111/4	निजी	शुष्क	1922	पर्वतम्मा, पत्नी—रामेगौड़ा
				106	निजी	शुष्क	2529	1. ईरभद्रैया अलियास पारैय्या, पुत्र—वीरभद्रैया 2. वीरभद्रैया, पुत्र—रुद्रैया 3. देवराज, पुत्र—कुमारास्वामी, माँ दयावम्मा
				104/3	निजी	शुष्क	708	धनंजय, पुत्र—तिरुमलैय्या
				104/2	निजी	शुष्क	2226	चन्नवीरप्पा, पुत्र—वीरभद्रप्पा
				107	निजी	शुष्क	126	1. चन्नवीरप्पा, पुत्र—वीरभद्रप्पा 2. राजम्मा, पत्नी—चन्नवीरप्पा 3. नेत्रावती, पत्नी—एच. सी. गिरीश
				104/1	निजी	शुष्क	1922	1. धनंजय, पुत्र—तिरुमलैय्या

								2. चन्नवीरप्पा, पुत्र-वीरभद्रप्पा (अनुभव)
				101/1 A3	निजी	शुष्क	320	के. एम. मंजुनाथ, पुत्र-ए. एम. मोगण्णगौड़ा
				101/1 A25	निजी	शुष्क	202	डी. शारावती, पत्नी-पी. कृष्णामूर्ति
				101/1 A35	निजी	शुष्क	202	वेंकटरामू, पुत्र-रंगेगौड़ा
				101/1 A34	निजी	शुष्क	101	मंजेगौड़ा, पुत्र-रंगेगौड़ा
				101/1 A33	निजी	शुष्क	51	कांतराजू, पुत्र-तिम्मगौड़ा
				101/1 A32	निजी	शुष्क	76	बसवराजू, पुत्र-तिम्मगौड़ा
				101/1 A31	निजी	शुष्क	177	1. रमेश, पुत्र-दासेगौड़ा 2. वेंकटेश, पुत्र-दासेगौड़ा 3. तेजावती, पुत्री-तिम्मगौड़ा
				101/1 B	निजी	शुष्क	253	1. के. वी. ईरप्पा, पुत्र-बसप्पाशेट्टी 2. बी. नागराज, पुत्र-बसप्पाशेट्टी 3. वासुदेव, पुत्र-बसप्पाशेट्टी 4. बी. जगदीश, पुत्र- सोमशेखर
				99/2	सरकारी	वन/ एनएके	400	रेसिडेंसियल क्वार्टर्स वन विभाग के लिए
				99/1	निजी	शुष्क	1625	निगम्मा, पत्नी-नंजप्पगौड़ा
				103/5	निजी	शुष्क	1012	वीरभद्रैया, पुत्र-रुद्रैया
				103/4	निजी	शुष्क	135	वीरभद्रैया, पुत्र-रुद्रैया
				103/1	निजी	शुष्क	620	1. वीरभद्रैया, पुत्र-रुद्रैया 2. ईरैया, पुत्र-रुद्रैया
				103/2	निजी	शुष्क	1012	1. ईरैया, पुत्र-रुद्रैया 2. देवम्मा, पत्नी-ईरैया 3. रेणुका कुमारस्वामी, पुत्र-ईरैया
				78/1	निजी	शुष्क	3642	जयम्मा, पत्नी- कृष्णगौड़ा
				78/2	निजी	नमी	1619	डी. बी. दिनेश, पुत्र- बैरेगौड़ा
				78/3A	निजी	नमी	2327	डी. बी. दिनेश, पुत्र- बैरेगौड़ा
				78/3B	निजी	शुष्क	1315	(ऐलिनेटेड) चंदन आरसीसी केस्टिन, ब्रिक
				78/4	निजी	शुष्क	911	डी. बी. दिनेश, पुत्र- बैरेगौड़ा
				78/5	निजी	शुष्क	1720	डी. बी. दिनेश, पुत्र- बैरेगौड़ा
				78/6	निजी	शुष्क	1113	एम. पी. करुणाकुमार, पुत्र-बी. प्रकाश
				78/10	निजी	शुष्क	1210	एम. पी. करुणाकुमार,

								पुत्र—बी. प्रकाश
				78/7	निजी	शुष्क	2023	शिवप्पा, पुत्र—पुट्टास्वामीगौड़ा
				78/8	निजी	शुष्क	1619	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा
				78/9	निजी	शुष्क	50	कांतराजू, पुत्र—शिवनंजप्पा
				89/5B	निजी	शुष्क	51	1. जयम्मा, पत्नी— कृष्णगौड़ा
								2. जयम्मा, पत्नी— हनुमंतेगौड़ा
				89/6	निजी	शुष्क	925	सुब्बेगौड़ा, पुत्र—निंगेगौड़ा
				89/7A	निजी	शुष्क	305	1. जयम्मा, पत्नी— सुब्बेगौड़ा
								2. आनन्द, पुत्र—बसप्पाचार
								3. पुरुषोत्तम, पुत्र— बसप्पाचार
				75/1	निजी	शुष्क	720	1. फरीदाखान, पत्नी—दिवंगत शहनवाज खान
								2. सोएब अहमद, पुत्र—शहनवाज खान
								3. सोएन खान, पुत्र—शहनवाज खान
								4. मजुबूल, पुत्र—शहनवाज खान
				66	निजी	शुष्क	3743	1. डी. एस. जयण्णा, पुत्र—शिवनंजप्पा
								2. डी. एस. कांतराजू, पुत्र—शिवनंजप्पा
								3. डी. एस. नंजुंडप्पा, पुत्र—शिवनंजप्पा
				74/6	निजी	शुष्क	760	बी. एस. जयण्णा, पुत्र— शिवनंजप्पा
				64	निजी	शुष्क	1775	1. सी. वी. रुद्रप्पा, पुत्र—ईरेगौड़ा
								2. फिरोज अहमद, पुत्र—अयाद साब
								3. सी. वी. रुद्रप्पा, पुत्र—ईरेगौड़ा
								4. सी. वी. शन्मुख, पुत्र—ईरेगौड़ा
								5. सी. वी. विरुपाक्ष, पुत्र—ईरेगौड़ा
				24	निजी	शुष्क	506	महंतेगौड़ा, पुत्र—मल्लेगौड़ा
				25/1	निजी	शुष्क	2226	पार्वतम्मा, पत्नी—रामेगौड़ा
				25/2	निजी	शुष्क	1225	ए. सी. तांडवेश, पुत्र—पर्वशेटी
				26/3	निजी	शुष्क	911	1. महंतेगौड़ा, पुत्र— मल्लेगौड़ा
								2. शिवप्पा, पुत्र—पुट्टास्वामीगौड़ा
				26/2	निजी	शुष्क	911	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा

				26/1	निजी	शुष्क	809	सी. आर. महंतेगौड़ा, पुत्र—रामेगौड़ा
				42/2	निजी	शुष्क	2023	एच. पी. अशोक कुमार, पुत्र— एच. एस. पुट्टस्वामीगौड़ा
				42/1	निजी	शुष्क	545	1. एच. पी. मोहन, पुत्र— पुट्टस्वामीगौड़ा
				41	निजी	शुष्क	935	1. महंतेगौड़ा, पुत्र—मल्लेगौड़ा
								2. शिवप्पा, पुत्र—पुट्टस्वामीगौड़ा
								3. डी. एस. कांतराजू, पुत्र— डी. एन. शिवनजप्पा
			6. समदाले	34/1	निजी	शुष्क	30	संते (सरकारी)
				सड़क	सरकारी	सड़क	225	1. बी. आर. अण्णाजीगौड़ा, पुत्र—बी. के. राजेगौड़ा
								2. वन चेकपोस्ट
				ग्रामीण क्षेत्र	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	607	1. ग्रामताणा (ग्रामीण क्षेत्र)
								2. सतीश, पुत्र—केम्पेगौड़ा
								3. बस पड़ाव
								4. पालक्ष, पुत्र— एस. पी. मल्लप्पा
								5. शाम्भवी, पत्नी— महाबलशेट्टी
								6. डी. पी. मधु, पुत्र— पुट्टराजू
								7. बी.एम. पुट्टराजू, पुत्र— मल्लप्पाशेट्टी
								8. बसवराजू, पुत्र— चंद्रशेट्टी
			7. बैरपुरा	9/5	सरकारी / निजी	एनएके	202	1. (ऐलिनेटेड भूमि)
								2. वेंकटम्मा, पत्नी— दिवंगत चन्नेगौड़ा
								3. गंगम्मा, पत्नी— बसप्पशेट्टी
				9/4A	सरकारी	एनएके	126	1. सरकारी खराब
				9/4B	निजी	शुष्क	253	मल्लशेट्टी, पुत्र—बासवाशेट्टी
				9/3	निजी	शुष्क	126	1. वाटेहोले परियोजना
								2. एम. बी. गिरिजा, पुत्री— दिवंगत ईरेगौड़ा
				9/1	निजी	एनएके	152	1. ऐलिनेटेड भूमि
								2. के. पी. पुट्टस्वामी गौड़ा, पुत्र— चिक्केगौड़ा
				1/19	निजी	शुष्क	304	वी. रंगेगौड़ा, पुत्र— तिम्मेगौड़ा
				1/11	निजी	शुष्क	936	1. ध्यावेगौड़ा, पुत्र— नंजेगौड़ा
								2. पुट्टस्वामीगौड़ा, पुत्र— नंजेगौड़ा
								3. चंद्रेगौड़ा, पुत्र—कूडा

								जवरेगौड़ा
								4. टी. रंगेगौड़ा, पुत्र—तिम्मेगौड़ा
								5. ध्यावम्मा, पत्नी— ईरभद्रेगौड़ा अलियास वीरभद्रेगौड़ा
				1/14	निजी	शुष्क	405	भूदेवम्मा, पत्नी—कैम्पेगौड़ा
				1/20	निजी	शुष्क	228	पुट्टेगौड़ा, पुत्र—अप्पेगौड़ा
				1/18	निजी	शुष्क	202	1. ध्यावेगौड़ा, पुत्र— ईरभद्रेगौड़ा
								2. सोमशेखरा, पुत्र—ईरेगौड़ा
				1/15	निजी	शुष्क	253	सुभद्राम्मा, पत्नी—ध्यावेगौड़ा
				1/17	निजी	शुष्क	329	तिम्मेगौड़ा, पुत्र—होन्नेगौड़ा
				5	निजी	नमी	1113	चंद्रेगौड़ा, पुत्र— जवरेगौड़ा
				4/17	निजी	नमी	50	ध्यावेगौड़ा, पुत्र—नंजेगौड़ा
				4/16	निजी	नमी	480	लक्ष्मम्मा, पत्नी—रुद्रेगौड़ा
				4/15	निजी	नमी	531	ध्यावेगौड़ा, पुत्र— नंजेगौड़ा
				4/14	निजी	नमी	354	तिम्मेगौड़ा, पुत्र—होन्नेगौड़ा
				4/12	निजी	नमी	215	1. ध्यावेगौड़ा, पुत्र— नंजेगौड़ा
								2. पुट्टास्वामीगौड़ा, पुत्र— नंजेगौड़ा
				2/2	निजी	शुष्क	3136	बी. आर. अन्नाजीगौड़ा, पुत्र—राजेगौड़ा
				2/1	निजी	शुष्क	4350	भूदेवम्मा, पत्नी—कैम्पेगौड़ा
				7	निजी	शुष्क	2023	1. बी. आर. अन्नाजीगौड़ा, पुत्र—बी. के. राजेगौड़ा
								2. भूदेवम्मा, पत्नी—कैम्पेगौड़ा
								3. एस. एम. देवराजेगौड़ा, पुत्र—मेलेगौड़ा
								4. वाटेहोले परियोजना
								5. वीरेश, पुत्र—लिंगराजचर
								6. सुब्बेगौड़ा, पुत्र—तिम्मेगौड़ा
								7. एच. सी. श्रीनिवासा, पुत्र—चिक्केगौड़ा
								8. तायम्मा, पत्नी—शिवण्णा
								9. गिरी
								10. गिरीश, पुत्र—कैम्पेगौड़ा
				8/5	निजी	एनएके	354	अनुभवदर्शः— 1. रुद्रेगौड़ा, पुत्र—मरिगौड़ा (अनु)
								2. बी. बी. आनंदचारी, पुत्र—बसप्पाचार

								3. कृष्णगौड़ा, पुत्र—तिम्मगौड़ा
								4. राजगौड़ा, पुत्र— कृष्णगौड़ा
								5. श्रीनिवास, पुत्र— महाबलशेटी
								6. एम. चंद्रशेखर, पुत्र— महाबलशेटी
								7. एम. बालाकृष्णा, पुत्र— महाबलशेटी
								8. एम. मंजुनाथ, पुत्र— महाबलशेटी
								9. अप्पाजीगौड़ा अलियास अन्नाजीगौड़ा, पुत्र—बी. के. राजगौड़ा
								10. धीरेश, पुत्र—लिंगराजचार
				8/1	निजी	शुष्क	25	1. नंजम्मा, पत्नी—निंगशेटी
								अनुभवदर्स—
								2. वेंकटगौड़ा, पुत्र—कृष्णगौड़ा (अनु)
								3. तिम्मम्मा, पत्नी— दोड्डैया (अनु)
								4. मणिपूरद कृष्णगौड़ा (अनु)
			8. सोपिनहल्लि	40	सरकारी	मंदिर	30	चन्नारायस्वामी कट्टे
				39/2	निजी	शुष्क	195	1. नीलकंठ, पुत्र—मल्लप्पा शेटी
								2. एन. ई. जंयती, पुत्र—नीलकंठ
				39/3	निजी	शुष्क	30	शिवकुमार, पुत्र— मल्लप्पाशेटी
				42/1	निजी	शुष्क	95	डी. बी. निगराजू, पुत्र— डी. बी. बैरेगौड़ा
			9. बाचनहल्लि	7	निजी	शुष्क	430	1. डी. बी. लिंगराजू, पुत्र— डी. बी. बैरेगौड़ा
								2. एच. जे. सुमन, पत्नी—डी. बी. लिंगराजू
				6	सरकारी	टंकी	785	उरा बागिलू करे
				59/2	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	202	ज्योति गुरुदेव, पत्नी— गुरुदेव
				नाला	सरकारी	नाला	1200	सरकारी नाला
				55/1	निजी	शुष्क	40	एनएच-48
								अब्दुल रशीद, पुत्र— मोहम्मद दस्तगीर (अनु)
				54/2A	सरकारी	शुष्क	30	एनएच-48
								वे ब्रीज
				54/2B	सरकारी	शुष्क	225	वे ब्रीज
				13	सरकारी	शुष्क	1214	एनएच-48 के लिए अर्जित
				8	सरकारी	ग्रेव यार्ड	640	ग्रेव यार्ड

			10. शिंगापुरा	नाला	सरकारी	नाला	1175	सरकारी नाला/नदी
				9/2	निजी	सा. नी. नमी	25	पुढास्वामीगौड़ा, पुत्र-रामेगौड़ा
				9/1	निजी	सा. नी. नमी	90	1. कमलाम्मा, पत्नी-योगेश
								2. गौरम्मा, पत्नी-दिवंगत राजेगौड़ा
								3. निगराजू, पुत्र-राजेगौड़ा
				4/1	निजी	शुष्क	720	1. गौरम्मा, पत्नी-दिवंगत राजेगौड़ा
								2. निगराजू, पुत्र-राजेगौड़ा
				6	निजी	शुष्क	8225	1. के. एम. देवराजू, पुत्र- मंजेगौड़ा
								2. सन्नेगौड़ा, पुत्र-ध्यावेगौड़ा
								3. चिन्नास्वामी, पुत्र-रामास्वामी
								4. देवराजू, पुत्र-ध्यावेगौड़ा
								5. सरकारी गोमला मल्लिकार्जुन, पुत्र-मल्लैय्या
								6. मल्लिकार्जुन, पुत्र-मल्लैय्या
				188	निजी	शुष्क	4147	1. शनेश्वरा मंदिर
								2. ए. रमेश, दिवंगत अन्नेगौड़ा
								3. सरकारी खराब
				3/1	निजी	शुष्क	440	के. ए. नारायणा, पुत्र-दिवंगत अन्नेगौड़ा
				10	निजी	नमी	275	1. जयम्मा, पत्नी-शिवनंजेगौड़ा
								2. शशांतेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
								3. एनएच-48
			11. कनडसहल्लि	7	सरकारी	खराब	90	1. गोमला
								2. मंजेगौड़ा, पुत्र-जवरेगौड़ा (अनुभव)
				4/1	निजी	शुष्क	2570	के. एम. देवराजू, पुत्र-मंजेगौड़ा
				2/1	निजी	शुष्क	1720	1. पटेल नंजेगौड़ा, पुत्र-ध्यावेगौड़ा
								2. रामेगौड़ा, पुत्र-नंजेगौड़ा
				1/4	निजी	शुष्क	970	के. भरत, पुत्र- के. डी. कृष्णामूर्ति
				1/3	निजी	शुष्क	40	1. पुढराजू, पुत्र-चिक्केगौड़ा
								2. सन्नेगौड़ा, पुत्र-चिक्केगौड़ा
								3. शेखर, पुत्र-चिक्केगौड़ा

								4. के.वी. ध्यावेगौड़ा, पुत्र—वीरभद्रगौड़ा
				ग्रामीण क्षेत्र	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	105	1. बस पड़ाव
								2. शंकरेगौड़ा, पुत्र— शिवेगौड़ा
								3. सिद्धरामेगौड़ा, पुत्र— शिवेगौड़ा
								4. बासवेगौड़ा, पुत्र— शिवेगौड़ा
				14/4	निजी	शुष्क	370	1. चिक्केगौड़ा, पुत्र— गिद्देगौड़ा
								2. देवराजेगौड़ा, पुत्र— गिद्देगौड़ा
								3. मंजेगौड़ा, पुत्र— गिद्देगौड़ा
								4. शिवेगौड़ा, पुत्र— गिद्देगौड़ा
				16/4	निजी	शुष्क	45	1. देवेगौड़ा, पुत्र— ईरेगौड़ा
								2. पर्वतम्मा, पत्नी—देवेगौड़ा
				16/5	निजी	शुष्क	40	एस. एल. देवराजेगौड़ा, पुत्र—लक्ष्मेगौड़ा
				13/1	निजी	शुष्क	1669	एस. सी. रामचंद्रगौड़ा, पुत्र— दिवंगत पुद्देगौड़ा
				13/2	निजी	शुष्क	140	देवम्मा, पत्नी— दिवंगत दोड्डेगौड़ा
				13/3	निजी	शुष्क	220	एस. टी. तिम्लेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिरुमलेगौड़ा
				11/2A 3	निजी	शुष्क	705	के. एस. नंदीश, पुत्र— सिद्धरामेगौड़ा
				11/2A 2	निजी	शुष्क	809	के. एस. संदेश, पुत्र— सिद्धरामेगौड़ा
				11/2B	निजी	शुष्क	607	1. नंजैय्या, पुत्र—तिम्मैय्या
								2. सिद्धैय्या, पुत्र—सिद्धैय्या
								3. चन्नैय्या, पुत्र—चन्नैय्या
				11/3	निजी	शुष्क	531	1. पटेल नंजेगौड़ा, पुत्र— ध्यावेगौड़ा
								2. कृष्णामूर्ति, पुत्र— नंजेगौड़ा
				10/5	निजी	शुष्क	100	हेमावती, पत्नी— रामेगौड़ा
				10/4	निजी	शुष्क	65	1. के. देवेगौड़ा, पुत्र— ईरेगौड़ा
								2. के. अब्बास, पुत्र— दिवंगत मोहम्मद
								3. के. निसार, पुत्र— अब्दुल रज़ाक
				10/6	निजी	शुष्क	30	1. के. अब्बास, पुत्र— दिवंगत मोहम्मद
								2. के. निसार, पुत्र— अब्दुल रज़ाक
				10/7	निजी	शुष्क	60	1. के. अब्बास, पुत्र— दिवंगत मोहम्मद
								2. के. निसार, पुत्र— अब्दुल रज़ाक

				8	निजी	शुष्क	1230	एच. आर. राजेगौड़ा, पुत्र— दिवंगत एच. रंगप्पा
			13. चेन्नेनहल्लि	16	सरकारी / निजी	खराब	101	सरकारी
				15	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	253	सरकारी
			14. रंगेनहल्लि	11	सरकारी / निजी	खराब	51	1. गोमला
								2. ए. एस. बसीर, पुत्र— अबूबेकर
			15. होन्नवल्लि	1	सरकारी / निजी	खराब, ग्रेव यार्ड एवं शुष्क	24475	1. सरकारी गोमला
								2. केंगैय्या
								3. एच. एस. जया, पत्नी—शिवप्पा
								4. बसवराजू, पुत्र—आर. सन्नप्पागौड़ा
								5. शिवेगौड़ा, पुत्र—आर. सन्नप्पागौड़ा
								6. तम्मन्नागौड़ा
								7. सिद्धप्पा, पुत्र— पुट्टस्वामीगौड़ा
								8. सचिन विलियम, पुत्र—वी. पी. विलियम
								9. गुरुलिंगप्पा, पुत्र— मल्लेगौड़ा
								10. मल्लेशा
								11. वेंकटेशा, पुत्र— जावरैय्या
								12. सरकारी गोमला
								13. रंगैय्या
								14. चंद्रशेटी, पुत्र—शिवकुमार
								15. लक्ष्मम्मा, पत्नी— बसवेगौड़ा
								16. सरकारी प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय, होन्नवल्लि
				178	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	16188	1. सरकारी गोमला
								2. सोम्बेगौड़ा, पुत्र—बोरेगौड़ा
								3. पुट्टम्मा, पत्नी— हनुमाशेटी
								4. रत्नाम्मा, पत्नी—जावरशेटी (अनु)
								5. रामाशेटी, पुत्र— बासवाशेटी
								6. रत्नाम्मा, पत्नी—जावरशेटी (अनु)
								7. एच. एस. राजू, पुत्र—सोन्नप्पा गौड़ा

								8. बासवाराजू, पुत्र—दोड्डेय्या शेटी
								9. रामचंद्र, पुत्र— दोड्डेय्याशेटी
								10. महादेवम्मा, पत्नी— एच. पी. वीरभद्रप्पा
								11. शिवप्पा, पुत्र— महादेवप्पा
								12. मंजुला, पत्नी— उदय कुमार
								13. शोभा, पत्नी/ले: संगप्पा
								14. विनोदा, पत्नी—जनार्धना
								15. प्रेमा, पत्नी—वंकटेश
								16. आरटीसी के अनुसार
								17. लक्ष्मम्मा, पत्नी—गोविंदाशेटी
								18. वेंकटेशा, पुत्र— दोड्डेय्याशेटी
								19. बसप्पा, पुत्र— माडप्पा
								20. मल्लप्पा, पुत्र— मादप्पा
								21. हराप्रसाद, पुत्र— ए. बी. जयशंकर
								22. अवम्मा, पत्नी— बावुबैरी
								23. यूसूफ, पुत्र— इब्राहिम
								24. बी. ए. अबूबकर, पुत्र—अहमद बैरी
								25. बी. ए. युसूफ, पुत्र— अहमदबैरी
								26. पी. एच. कासिम, पुत्र— हुसैन
								27. इदायुतुल्ला ईस्लाम अरबी मदरसा स्कूल
								28. ईसाम्मा, पत्नी—दिवंगत अब्बुल्ला
								29. सरकारी सड़क
								30. ए. एस. बसीर, पुत्र— अबूबकर
								31. सुकुमारन (अनु)
								32. येशु देवालय
								33. सेक्वारा, पुत्र—ए. जी. सेक्वर
								34. रामाशेटी, पुत्र— बासवाशेटी
								35. एच. एम. अन्नेगौड़ा, पुत्र— मल्लेगौड़ा (खाता)
								36. रामशेटी, पुत्र— बसवाशेटी (अनु)

				177	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	11128	1. मुस्लिम ग्रेव यार्ड (अनु) 2. पब्लिक ग्रेव यार्ड 3. जे. टी. कुमारा (अनु) 4. गौरम्मा, पत्नी – नटराजू (अनु) 5. पर्यटक होटल (अनु) 6. मंजेगौड़ा, पुत्र– रामेगौड़ा (अनु) 7. रंगशेटी, पुत्र–हनुमशेटी (अनु) 8. लक्ष्मण, पुत्र– नारायणराव (अनु) 9. सरकारी गोमला
		3. सकलेशपुरा	1. हसुगवल्लि	43/1C	निजी	शुष्क	30	मीनाक्षी, पत्नी– देवप्पा
				54	निजी	शुष्क	690	खातेदार– 1. सिद्धम्मा, पत्नी– दिवंगत सिद्धैय्या 2. बी. ई. निगराजू, पुत्र– इरैय्या 3. धनंजय, पुत्र– तिम्मैय्या 4. देवसी, पुत्र – अंथोनी अनुभवदार– 1. कृष्णामूर्ति, पुत्र– दिवंगत सिद्धैय्या 2. संजीव 3. जवरैय्या, पुत्र–इरैय्या 4. देवदास, पुत्र–शंकप्पा पुजारी
				90	निजी	शुष्क	2529	ए. नारायणराव, पुत्र– दिवंगत एम.आर.ए. राव
				91	निजी	शुष्क	405	ए. नारायणराव, पुत्र– दिवंगत एम.आर.ए. राव
				55/1A	निजी	शुष्क	1000	मंजैय्या, पुत्र–लक्कैय्या
				55/1B	निजी	शुष्क	253	रेखा महेशकुमार, पुत्र– महेशकुमार बी. एन.
				55/1C	निजी	शुष्क	607	1. जवरैय्या, पुत्र–तिम्मैय्या 2. सन्नाजावरैय्या, पुत्र– रंगैय्या 3. गोविंदैय्या, पुत्र–रंगैय्या 4. वेंकटैय्या, पुत्र– रंगैय्या 5. सी. टी. जयपाल, पुत्र– तिम्मैय्या 6. निगम्मा, पत्नी–तिम्मैय्या
				55/2	निजी	शुष्क	354	के. एम. संकप्पा, पुत्र– दिवंगत मुंडप्पा राय

			2. बल्लू	69	सरकारी	टंकी	607	सरकारी टंकी
				144	निजी	शुष्क	25	बी. जी. सिद्धार्थ, पुत्र—गुरुप्रकाश
				सड़क	सरकारी	सड़क	1000	सरकारी ओनी
				211/2	निजी	शुष्क	2428	बी. एन. बसवण्णा, पुत्र—बी. बी. नंजप्पा
				209	निजी	शुष्क	1120	1. बी. एन. पुट्टस्वामी, पुत्र—बी. बी. नंजप्पा 2. बी. एन. लिंगराजू, पुत्र—बी. बी. नंजप्पा
				207/1	निजी	वृक्षारोपण	405	बी. बी. देवराज, पुत्र—बी. एस. बसप्पा
				207/2	निजी	वृक्षारोपण	202	बी. सी. सुधीर, पुत्र—दिवंगत बी. चंद्रप्पा अलियास चंद्रशेखर
				207/3	निजी	वृक्षारोपण	1619	राधाम्मा, पत्नी— दिवंगत बी. चंद्रप्पा अलियास चंद्रशेखर
				207/4	निजी	वृक्षारोपण	202	बी. सी. सुनील, पुत्र—दिवंगत बी. चंद्रप्पा अलियास चंद्रशेखर
			3. यडेहल्लि	142	निजी	वृक्षारोपण	30	बी. एन. लिंगराजू, पुत्र—बी. बी. नंजप्पा
				143	निजी	वृक्षारोपण	190	बी. एस. बसवराजू, पुत्र—बी. शिवप्पा
				144	निजी	वृक्षारोपण	1720	1. बी. कल्याण, पुत्र—बी. एन. बसप्पा 2. बी. देवराजू, पुत्र— बी. एन. बसप्पा
				145/1	निजी	वृक्षारोपण	2428	बी. कल्याण, पुत्र—बी. एन. बसप्पा
				145/2	निजी	शुष्क	1380	बी. बसवराजू, पुत्र—बी. एस. बसवेगौड़ा
				ग्रामीण क्षेत्र	सरकारी / निजी	सड़क एवं शुष्क	2340	1. कमलम्मा, पत्नी— बी. एन. सिद्धैय्या 2. मोहित, पुत्र—दिवंगत पुट्टास्वामैय्या 3. दयावम्मा, पत्नी— दिवंगत ताम्मैय्या 4. श्रुति, पुत्री — दिवंगत पुट्टैय्या 5. पुट्टम्मा, पत्नी— दिवंगत बी. एन. सिद्धैय्या 6. प्रभाकरशेटी, पुत्र— लिंगप्पाशेटी 7. गौरम्मा, पत्नी— दिवंगत नागप्पा 8. वेदावती, पत्नी— दिवंगत मंजप्पा 9. ग्रामताणा
				149/2	निजी	शुष्क	101	बी. एन. पुट्टास्वामी, पुत्र—दिवंगत नंजप्पा
				149/3	निजी	शुष्क	30	बी. एन. पुट्टम्मा, पुत्र—दिवंगत नंजप्पा
				208	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	1619	1. सरकारी गोमाला 2. कृषि विभाग

				238	निजी	शुष्क	4180	1. गौरम्मा, पत्नी— चन्नबसप्पा 2. एच. एन. सुमति, पत्नी—दिवंगत निंगराजू
				156	निजी	शुष्क	1113	बसम्मा, पत्नी—बसवेगौड़ा
				157	निजी	शुष्क	3642	बी. शांतराजू, पुत्र—बसवेगौड़ा
				160	निजी	शुष्क / वृक्षारोपण	2023	1. बी. शांतराजू, पुत्र—बसवेगौड़ा 2. बी. एम. शशिरेखा
				206	निजी	शुष्क	4047	बी. एस. रोहित, पुत्र— श्री जीएन. कात्यानी
			4. बागे	158	सरकारी / निजी	ग्रेव यार्ड एवं चर्च	4330	चर्च एवं ग्रेव यार्ड
				22	सरकारी / निजी	खराब	5564	1. सरकारी गोमाला 2. हिन्दू ग्रवयार्ड (अनु)
				154	निजी	शुष्क	510	बी. एस. कात्यिनी पत्नी—शिवकुमार
				21	निजी	नमी	2327	बी. एस. कात्यिनी पत्नी—शिवकुमार
				156	सरकारी / निजी	खराब	3830	1. सरकारी गोमला 2. वेस्लियास मेथोडियन चर्च 3. बी. ए. रामकृष्णा, पुत्र—शेशपुजारी 4. श्रीनिवास, पुत्र—केशवैय्या 5. सदानन्द पुजारी 6. कृष्णेगौड़ा
								7. वेस्लियास मेथोडियन चर्च प्रार्थना सभा
				सड़क	सरकारी	सड़क	230	सरकारी
				138	निजी	शुष्क	2690	1. एम. नंदिशा बल्लू, पुत्र— बी. सी. मल्लेगौड़ा 2. सुलोचना रामकृष्णा (अनु) 3. सदानन्द पुजारी 4. टाटा कॉफी लिमिटेड 5. एम. नंदिशा बल्लू, पुत्र— बी. सी. मल्लेगौड़ा
				157	सरकारी	खराब	2960	1. सरकारी पीडब्लूडी आवास 2. सरकारी प्राथमिक विद्यालय 3. गोपीनाथ, पुत्र— सुब्रमणिया 4. बी. ए. गंगाधर 5. बी. पुट्टैया 6. जयनन्द

							5. सरोज
				1/1	निजी	शुष्क एवं नमी	529
							1. नीलकण्ठगौड़ा, पुत्र—एच. ईरगौड़ा
							2. नागम्मा, पत्नी—नंजेगौड़ा
							3. बसवराजू, पुत्र—नंजेगौड़ा
							4. सोमम्मा, पत्नी—चेन्नेगौड़ा
							5. जी. ई. रुद्रेगौड़ा, पुत्र—ईरगौड़ा
							6. जी. एस. पुष्पा, पत्नी—जी. ई. शिवप्पागौड़ा
							7. ईरगौड़ा, पुत्र—हालेगौड़ा
							8. बसवराजू, पुत्र—नंजेगौड़ा
							9. निगप्पा, पुत्र—दिवंगत चन्नेगौड़ा
							10. पालक्षा, पुत्र—ईरगौड़ा
							11. डी. एच. रामेगौड़ा, पुत्र—देवेगौड़ा
							12. एच. बी. उमेश, पुत्र—बैरप्पा
							13. मोयुद्दीन बैरी, पुत्र—अबुबकर
							14. जी. एम. इब्राहिम, पुत्र—मोयुद्दीन बैरी
				28/1	निजी	शुष्क	4147
							जी. एस. पुष्पा, पत्नी—जी. ई. शिवप्पागौड़ा
				28/2	निजी	शुष्क	680
							मधुसूदन, पुत्र—श्रीधर
				31	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	150
							1. बसवैया, पुत्र—दोड्डबसवैया
							2. हुवम्मा, पत्नी—मलैया
							3. नरेन्द्र, पुत्र—केंचेगौड़ा
							4. सरकारी गोमाला
				32	निजी	शुष्क	2010
							एच. के. मंजुनाथ, पुत्र—केंचेगौड़ा
				86	निजी	शुष्क	1186
							1. विश्वनाथ, पुत्र—रमण
							2. शिवण्णा, पुत्र—जूलैया
							3. निंगराजू, पुत्र—मलैया
							4. हुवम्मा, पत्नी—मलैया
							5. सिदैय्या, पुत्र—बसैया
							6. कुमार, पुत्र—बसैया
							7. बसम्मा, पत्नी—देवराजू
							8. गोमाला
				85	निजी	शुष्क	101
							1. बैरम्मा, पत्नी—जूलैया
							2. शिवम्मा, पत्नी—सिदैय्या

								3. शिवण्णा, पुत्र—जूलैय्या
				33	निजी	शुष्क	1010	देवम्मा, पत्नी— पुट्टास्वामीगौड़ा
				37	निजी	शुष्क	950	देवम्मा, पत्नी— पुट्टास्वामीगौड़ा
				36	निजी	शुष्क	3020	1. जैकब मेनजेस 2. फातिमा, पत्नी— पकरू बेरी 3. शारदाम्मा, पत्नी— महालिंगप्पा 4. जी. एम. सुरेन्द्र, पुत्र— महालिंगप्पा 5. जी. एम. श्रीधर, पुत्र— महालिंगप्पा 6. जी. एम. रमेश, पुत्र— महालिंगप्पा 7. जी. एम. शशिधर, पुत्र—महालिंगप्पा 8. जी. एम. रविन्द्र, पुत्र— महालिंगप्पा 9. संजीवी, पत्नी—ध्यावप्पाचार 10. कृष्णाराव 11. लौकेश 12. रोबर्ट वेगास 13. एम. जे. फ्रांसिस, पुत्र—जोसेफ 14. अल्फान डीसूजा, पुत्र—जोसेफ डीसूजा 15. बाबू 16. मंजप्पा 17. गुरुवा केपू 18. तनिया, पुत्र—कुकरा मेस्त्री 19. जी. एम. सुरेन्द्र, पुत्र—महालिंगप्पा 20. जी. एम. श्रीधर, पुत्र—महालिंगप्पा 21. जी. एम. रमेश, पुत्र—महालिंगप्पा 22. जि. एम. शशिकुमार, पुत्र—महालिंगप्पा 23. जी. एम. रविन्द्र, पुत्र—महालिंगप्पा 24. नाम्बिकेमारी, पुत्र—रायप्पा 25. अब्बास, पुत्र—याकोब 26. संजीवीनी, पत्नी—देवप्पाचार
				38	निजी	शुष्क	720	के. बी. कमला, पत्नी— के. एम. बसवराजू
				39/1	निजी	शुष्क	570	पूर्णिमा, पत्नी— के. एम.

								बसवराजू
				39/3A	निजी	शुष्क	405	1. जयनन्द, पुत्र— के. पी. सुब्बण्णा
								2. दिवाकर, पुत्र— बाबूमोहन
				39/3B	निजी	एनएके	90	1. जयनन्द, पुत्र— के. पी. सुब्बण्णा
								2. दिवाकर, पुत्र— बाबूमोहन
				40	निजी	शुष्क	540	के. बी. कमला, पत्नी— के. एम. बसवराजू
				35/4	निजी	नमी	708	जयनन्द, पुत्र— के. पी. सुब्बण्णा
				35/5	निजी	नमी	607	बसम्मा, पत्नी— रुद्रेगोड़ा
				35/6	निजी	नमी	115	के. बी. कमला, पत्नी— के. एम. बसवराजू
				43	सरकारी	खराब	506	सरकारी गोमला
				42	निजी	शुष्क	410	आर. चंद्रशेखर, पुत्र—आर.लक्ष्मीपतिगौड़ा
				44	निजी	शुष्क	3642	आर. चंद्रशेखर, पुत्र—आर.लक्ष्मीपतिगौड़ा
				नाला	सरकारी	नाला	911	सरकारी हल्ला
			8. मटसागरा	नाला	सरकारी	नाला	1012	सरकारी नाला
				30	निजी	नमी	2760	शर्मिन युनूस, पत्नी— युनूस जीया
				29	निजी	वृक्षारोपण	1720	1. जेम्स खोलसो
								2. होबार्ट गोवियास (अनु)
				28	निजी	वृक्षारोपण	6576	1. जेम्स खोलसो
								2. होबार्ट गोवियास (अनु)
				26	निजी	वृक्षारोपण	2350	1. जेम्स खोलसो
								2. होबार्ट गोवियास (अनु)
				16/1	निजी	वृक्षारोपण	5564	होसूरू कॉफी इस्टेट
				25	निजी	कॉफी वृक्षारोपण	6300	कॉफी बोर्ड
				24	सरकारी	टंकी	190	सरकारी टंकी
				33	निजी	वृक्षारोपण	220	1. जेम्स खोलसो
								2. होबार्ट गोवियास (अनु)
				31	निजी	शुष्क / नमी	1310	1. जेम्स खोलसो
								2. होबार्ट गोवियास (अनु)
			9. होसूरू कॉफी इस्टेट	1	निजी	वृक्षारोपण	1821	होसूरू इस्टेट
			10. कोल्लहल्लि	46	निजी	वृक्षारोपण	6677	ओसूरू इस्टेट
				47	निजी	वृक्षारोपण	5160	ओसूरू इस्टेट
				48	निजी	वृक्षारोपण	2630	ओसूरू इस्टेट

				49/2	निजी	वृक्षारोपण	1467	मेसर्स ओसूर ईस्टेट, अध्यक्ष, जियाउल्ला शेरीफ
				49/1	निजी	वृक्षारोपण	911	मेसर्स ओसूर ईस्टेट, अध्यक्ष, जियाउल्ला शेरीफ
				42	निजी	शुष्क एवं वृक्षारोपण	51	मोहिदिल अब्दु एवं ओसूरु ईस्टेट
				51	निजी	वृक्षारोपण	2125	ओसूरु ईस्टेट
				50	निजी	वृक्षारोपण	3339	ओसूरु ईस्टेट
				सड़क	सरकारी	सड़क	1518	1. कृष्णा भण्डारी, पुत्र—सिद्ध भण्डारी 2. अब्दुल कादर, पुत्र—मैदिनब्बा 3. अनवरल ईस्लाम अरबी मस्जिद 4. गिरिजाम्मा, पत्नी—राजू 5. के. ए. इब्राहिम, पुत्र—अकरम बैरी 6. बस पड़ाव, के. आर. सतीशशेटी, पुत्र— राजाशेटी 7. सरकारी सड़क
				60	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	13861	1. गोमाला
								अनुभवदार— 2. बी. आर. बासवाराजू, पुत्र—बी. राजशेखर 3. एच. पी. संगप्पा, पुत्र — पुट्टास्वामीगौड़ा 4. रघुनाथशेटी, पुत्र—दासशेटी
								5. शेखरशेटी, पुत्र—दासशेटी 6. अनु: मुनियम्मा, पत्नी— अन्नामलाई 7. मोहम्मद रफिक, पुत्र—उमारब्बा 8. के. एम. इब्राहिम, पुत्र—मोहिदिनब्बा 9. कृष्णा भण्डारी, पुत्र—सिद्ध भण्डारी 10. अब्दुल कादर, पुत्र—मैदिनब्बा 11. सरकारी सड़क 12. अनवरल ईस्लाम अरबी मस्जिद
				61/2	निजी	शुष्क	3541	बी. राजशेखर, पुत्र—बी. बासवाराजू
				100	निजी	शुष्क	1366	बी. बी. मल्लण्णा बी. राजशेखर
				62	निजी	शुष्क	11220	1. बी. बी. मल्लण्णा 2. बी. राजशेखर, पुत्र—

								बसवराजू
								3. बी. बसवराजू, पुत्र—बी. राजशेखर
				63	निजी	शुष्क	2529	बी. बी. मल्लप्पा, पुत्र— बी. बासवराजू
			11. मलालि	384/1	निजी	शुष्क	481	एम. एन. मंजुनाथ शेटी, पुत्र— निंगप्पाशेटी
				384/2	निजी	शुष्क	6172	विशाल बेल्लूर
				387/3	निजी	शुष्क	3541	एम. एन. मंजुनाथ शेटी, पुत्र— निंगप्पाशेटी
				381	निजी	शुष्क	6779	एम. एन. मंजुनाथ शेटी, पुत्र— निंगप्पाशेटी
				365/1	निजी	नमी	1650	ममता अशोक, पत्नी— एस. एस. अशोक कुमार
				367	निजी	नमी	2934	एस. ए. नागार्जुन, एम. जी. फादर एस. एस. अशोक कुमार
				368	निजी	नमी	260	एस. एस. अशोक कुमार, पुत्र— एस. एस. सिद्धप्पा
				370/1	निजी	नमी	840	ममता अशोक, पत्नी— एस. एस. अशोक कुमार
				370/2	निजी	नमी	304	कोनडैय्या, पुत्र—कोल्लैय्या
				362	निजी	वृक्षारोपण	1690	एम. एस. विजयशंकर, पुत्र— शिवप्पा
				360	निजी	वृक्षारोपण	3642	एम. एस. विजयशंकर, पुत्र— शिवप्पा बैकेरे नंजम्मा
				191/2	निजी	नमी	2230	एस. एच. पुट्टराजू, पुत्र— हुच्चप्पाशेटी
				191/1	निजी	नमी	227	एस. एच. पुट्टराजू, पुत्र— हुच्चप्पाशेटी
				192	निजी	नमी	1740	एस. मंजेश, पुत्र—संदेश नागराज
				193	निजी	नमी	809	एम. एस. विजयशंकर
				नाला	सरकारी	नाला	304	एनएच-48
				197	निजी	नमी	2440	एस. एस. हरीशचंद्र, पुत्र— एच. वी. सुब्बगौड़ा
				198	निजी	नमी	2720	एस. विजयलक्ष्मी, पत्नी— एस. के. कुमारेश बाबू
				223	निजी	नमी	304	जगदीश, पुत्र— रामप्पा
				199	निजी	नमी	1113	शैलेश्री, पत्नी— एल. श्रीनिवास मूर्ति
				221/4	निजी	नमी	1214	एम. एन. शिवप्पा, पुत्र— नंजगौड़ा
				221/3	निजी	नमी	1140	एम. बी. लिंगराजू
				221/2	निजी	नमी	1771	एम. आर. जगदीश, पुत्र— रामप्पा
				221/1	निजी	नमी	25	एम. बी. परमेश
				200/1	निजी	नमी	30	एम. वी. दर्शन, पुत्र— एम. बी. वीरपक्ष
				222	निजी	नमी	355	एम. बी. वीरपक्ष
				220	निजी	नमी	1400	एम. एस. विजयशंकर

				227	निजी	नमी	1619	मीनाक्षी, पत्नी— मल्लप्पागौड़ा
				219/2	निजी	नमी	530	एम. आर. शिवनन्दा, पुत्र— रामप्पा
				219/3	निजी	नमी	730	इरैय्या, पुत्र—नागराजू
				228	निजी	नमी	1640	एच. वी. मंजुला, पत्नी— दिवंगत एम. एस. चंद्रशेखर
				261/2	निजी	नमी	304	1. एम. पी. गंगाधर 2. एनएच-48
				सड़क	सरकारी	सड़क	460	बाई पास सड़क के लिए अर्जित भूमि
				260/2	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	354	1. एम. पी. गंगाधर 2. एनएच-48
				259	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	202	1. एनएच-48 2. एम. देवराजू, पुत्र— शिवप्रकाश
				239/3	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	340	1. एनएच-48 2. दैवप्पा, पुत्र—सिद्देगौड़ा
				240	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	260	एनएच-48
				242/1	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	30	एनएच-48
				242/2	निजी	एम.आई. डब्ल्यू	25	वीरपक्ष, पुत्र—मोगप्पागौड़ा
				172/1	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	76	1. गंगाधरा, पुत्र—रामप्पा 2. एनएच-48
				172/2	सरकारी	सड़क	50	एनएच-48 के लिए अर्जित
				172/3	सरकारी	सड़क	90	एनएच-48 के लिए अर्जित
				175/3	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	30	1. एनएच-48 2. पार्वतम्मा, पत्नी—देवप्पा
				175/2	सरकारी / निजी	एम.आई. डब्ल्यू	30	एनएच-48 एम. एम. शिवप्रकाश
				सड़क	सरकारी	सड़क	160	सरकारी सड़क
				162/1	सरकारी / निजी	वृक्षारोपण	60	1. एनएच-48 2. वसंत कुमार 3. सदानन्द 4. सन्नैरैय्या, पुत्र—चन्नवीरैय्या
				सड़क	सरकारी	सड़क	60	सरकारी सड़क
				108	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	180	1. एनएच-48 2. जगदीश, पुत्र— रामप्पा 3. शिवानन्द, पुत्र—रामप्पा
								4. गंगाधरा, पुत्र—रामप्पा
				111/1	निजी	नमी	220	एम. एस. दयावप्पा, पुत्र— सिद्देगौड़ा

				110/1	निजी	नमी	60	एनएच-48
				115/1	निजी	नमी	140	1. एनएच-48
								2. ध्यावेगौड़ा, पुत्र-सिद्देगौड़ा
				119/2	निजी	नमी	110	एनएच-48 के लिए अर्जित
				124	निजी	नमी	202	मल्लम्मा, पत्नी- वीरैया
				131	सरकारी / निजी	नमी	660	1. एम. एस. चंद्रशेखर
								2. केंचम्मा, पत्नी-सिद्देय्या
				132	सरकारी / निजी	नमी	400	1. मंजू, पुत्र-नीरवाणैय्या
								2. एम. एस. चंद्रशेखर
								3. केंचम्मा, पत्नी-सिद्देय्या
				133/1	निजी	नमी	30	1. शिवण्णा, पुत्र-मल्लैय्या
								2. एम. पी. हल्कोदैय्या, पुत्र-हल्कोदैय्या
								3. पार्वतम्मा, पत्नी-एम. पी. सिद्देय्या
				134	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	540	एनएच-48
				145	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	708	रंगप्पा, पुत्र-केशवैया
				144/2	निजी	नमी	70	एस. एस. प्रदीप, पुत्र-एन. श्रीनिवासा
				144/1	सरकारी / निजी	सड़क एवं नमी	240	कालम्मा, चन्नावीरैया
				147/3	निजी	नमी	50	नागवेनम्मा, पत्नी-मंजुनाथशेटी
				147/4	निजी	शुष्क / नमी	30	एस. एल. सुब्बैयाशेटी, पुत्र- सी. वी. लक्ष्मीनारायण शेटी
				147/5	सरकारी	भाराराप्रा	40	एनएच-48
				150	निजी	नमी	30	एस. एल. नागराजू, पुत्र-निरवाणशेटी
			12. कसबा सकलेशपुरा	135/4	सरकारी	सड़क	1880	1. एनएच-48
								2. सरकारी छात्रावास
				247	सरकारी	शुष्क	1012	आरटीसी के अनुसार
				143/4	निजी	नमी	960	एम. बी. उमेश, पुत्र-पुट्टेगौड़ा
				143/3	निजी	शुष्क	820	बी. विनय, पुत्र-देवराजू
				146/2	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	3930	एनएच-48 के लिए अर्जित
				146/1	सरकारी	सड़क	3035	एनएच-48 के लिए अर्जित
				147	निजी	वृक्षारोपण	1416	बी. विनय, पुत्र-देवराजू
				148	निजी	वृक्षारोपण	2833	बी. एस. विद्याशंकर, पुत्र-दिवंगत शिवप्पा
				150	निजी	शुष्क	460	बी. एस. विद्याशंकर, पुत्र-दिवंगत शिवप्पा

13. आनेमहल	36/3	निजी	वृक्षारोपण	2833	1. बी. डी. विवेक, पुत्र—बी. एस. देवराजू
					2. डी. आर. सतीश, पुत्र— डी. सी. रुद्रेगौड़ा
	70/6	निजी	वृक्षारोपण	1416	डी. आर. सतीश, पुत्र— डी. सी. रुद्रेगौड़ा
	38	सरकारी / निजी	वृक्षारोपण	2930	1. खाते: सरकारी
					2. अनुभवदार— शकील रहमान
					3. साहिल अहमद
					4. रशिदा नसीर, पुत्र—बी. एम. मोहम्मद शाफि
					5. प्रसन्नकुमार, पुत्र—पदमनभ पिल्लई
					6. गिन्नी वर्गिस, पुत्र—सी. डी. वर्गिस
					7. अब्दुल रवूफ, पुत्र—एम.सी. मोहियुद
					8. बाशा साब
					9. किरण
					10. शब्बीर
	57	सरकारी	ग्रामताणा	809	एच. पी. राजू, पुत्र— पुट्टास्वामी
	66/3	निजी	वृक्षारोपण	350	1. अल्ल बख्श, पुत्र—जफर मोहियुद्दीन
					2. अनु: नजीर अहमद, पुत्र—जफर मोहियुद्दीन
	66/2	निजी	वृक्षारोपण	50	पी. एम. अहमद भावा, पुत्र—दिवंगत हसनब्बा
	68/2	निजी	मोटू बगायत	160	1. केशवाराजू
					2. जगदीशा
					3. शिवराम, पुत्र—अवयस्क अभिभावक वाई. एन. पद्मावती, पत्नी वासुदेवाशेट्टी (संयुक्त)
					4. खतीजम्मा, पत्नी—ऐडम
	68/3B	निजी	नमी	152	1. सुशीलाम्मा, पत्नी—दिवंगत अण्णप्पाशेट्टी
					2. सुरेश, पुत्र—दिवंगत सुशीलाम्मा
	68/3A	निजी	नमी	936	एन. नागम्मा, पत्नी— जर्नाधन
	69/3	निजी	शुष्क / वृक्षारोपण	2380	महाबालाशेट्टी, पुत्र— रमैयाशेट्टी
					गणेशाशेट्टी, पुत्र—दिवंगत जयरामशेट्टी
	1/4.	निजी	वृक्षारोपण	40	ए. डी. राकेश, पुत्र — ए. एस. देवराजू

				13	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	2920	अनुभवदार— 1. ए. एस. सुलेमान, पुत्र— कादर बैरी 2. लजर 3. इड्डिनबा, पुत्र— गाडीकादर 4. अब्बास, पुत्र— अहमद बैरी 5. मोहम्मद 6. साफिया, पत्नी—लतीफ 7. मदरसा स्कूल 8. हसनर 9. सलेना, पत्नी— एम. बाबू 10. बलेयम्मा 11. कुटीचेटी
			14. हल्लिबैलु	50	निजी	बागीचा	3350	टी. एस. गिरिजाम्मा, पत्नी—टी. डी. सुब्बण्णा
				41/1	निजी	बागीचा	380	टी. डी. सुब्बण्णा, पुत्र— टी. देवप्पा
				41/2	निजी	शुष्क	506	टी. डी. सुब्बण्णा, पुत्र—टी. देवप्पागौड़ा
			15. कलगने	34	निजी	खराब	5200	1. डी. एस. श्रीनिवासामूर्ति 2. डी. एस. गोविंदराजा (संयुक्त)
				29	निजी	शुष्क	30	1. एच. एन. तीर्थमूर्ति, पुत्र—निर्वाणीगौड़ा 2. एच. एन. चंद्रशेखर, पुत्र—निर्वाणीगौड़ा
			16. देवीहल्लि	30	निजी	वृक्षारोपण	101	सचिव, साम्बरा मंडली
				29	निजी	बागीचा	708	सचिव, साम्बरा मंडली
			17. दोनिगलु	18/1	निजी	शुष्क	1416	सचिव, साम्बरा मंडली
				15/1	निजी	शुष्क	1518	1. डी. आर. प्रकाश, पुत्र— डी. एस. राजशेखर 2. रानी मल्लेश, पत्नी— मल्लेश
				16	निजी	शुष्क	1330	1. डी. बी. मोहन, पुत्र— बसप्पा 2. वेदराजू, पुत्र— डी. एस. बसप्पा
				22/1	निजी	शुष्क	2529	1. डी. बी. वेदराजू, पुत्र—डी. जे. बसप्पा 2. डी. एस. हुलियप्पा, पुत्र—सिद्देगौड़ा 3. डी. आर. प्रकाश, पुत्र—राजशेखर 4. किरण चन्दन, पत्नी—डी. सी. चन्दन

								5. पुट्टटगियम्मा, पत्नी—बसप्पा
								6. डी. सी. चन्दन, पुत्र— डी. आर. चंद्रशेखर
				22/2	निजी	शुष्क	60	शांता जे. हेगडे, पत्नी— के. जगन्नाथ हेगडे
				60/1	निजी	शुष्क	759	विन्सेंट कुटिन्हा, पुत्र— जॉन एस. कुटिन्हा
				62	सरकारी / निजी	खराब एवं शुष्क	2140	1. सरकारी गोमला 2. बैरैय्या, पुत्र—निंगैय्या 3. मंजुनाथ, पुत्र—ईरैय्या 4. राधा, पत्नी— राजू (अनु) 5. हुलियप्पा
				64	निजी	शुष्क	1150	1. डी. सी. पूर्णिमा, पत्नी— दिवंगत डी. आर. चंद्रशेखर 2. रानी मल्लेश, पत्नी—डी. आर. मल्लेश 3. डी. आर. सतीश, पुत्र— दिवंगत डी. एस. राजशेखर
				61/1	निजी	शुष्क	304	सी. जे. नरोनी, पुत्र—गुरुपादप्पा
				61/2	निजी	वृक्षारोपण / शुष्क	4856	जी. नारायणा, पुत्र— दिवंगत गोविंदप्पा
				61/3	निजी	वृक्षारोपण / शुष्क	1260	1. एच. एस. देवराजू, पुत्र— दिवंगत नंजेगौड़ा 2. एच. जी. वनिता रविश, पत्नी— दिवंगत एच. एस. रविश
				56	निजी	शुष्क	120	जी. चंद्रशेखर इताल, पुत्र— सुब्बाराया इताल
				54	निजी	शुष्क	1416	1. गौरम्मा 2. डी. पी. जगदीश (संयुक्त)
				53	निजी	शुष्क	3130	1. टी. डी. बसप्पा 2. बी. बी. जयशंकर 3. बी. बी. विजयशंकर 4. बी. बी. शिवशंकर, पुत्र— टी. डी. बसप्पा 5. टी. डी. बसप्पा, पुत्र— देवप्पा
			18. केसगनहल्लि	19	निजी	शुष्क	4249	टी. डी. बसप्पा, पुत्र— देवप्पा
				18	निजी	शुष्क	830	1. बी. बी. विजयशंकर, पुत्र— बसप्पा 2. बी. बी. शिवशंकर, पुत्र— बसप्पा
				17	निजी	शुष्क	405	पी. बी. शिवशंकर, पुत्र— टी. डी. बसप्पा

				21	निजी	शुष्क	5650	1. एच. डी. नंजुडेश्वरा, पुत्र— एच. ई. देवप्पा
								2. गुण्डेगौड़ा, पुत्र—नंजेगौड़ा
								3. दुलराज, पुत्र— पन्नालाल धर्मराज
								4. एच. वी. रुद्रप्पा
				15/2	निजी	शुष्क	4957	बी. नागराज शेटी, पुत्र— संजीवशेटी
				15/1	निजी	शुष्क	1180	मालिनी जयंत
				16	निजी	शुष्क	420	मालिनी जयंत
				141/2	निजी	शुष्क	25	मालिनी जयंत
			19. कुंबर्डि काफि ऐस्टेद	नाला	सरकारी	नाला	3845	सरकारी नाला
				1/4	निजी	वृक्षारोपण	3237	1. एम. वी. गोपीनाथन, पुत्र— एम. के. विजयराघवन
								2. बी. वी. नागेशकुमार, पुत्र— दिवंगत बी. ए. वीरप्पा
								3. एम. के. कुरुविल्ला, पुत्र— एम. सी. कुरियन
								4. एम. एल. पटेल, पुत्र— रामदयाल पटेल
								5. के. एम. कृष्णाशेटी, पुत्र— के. एम. शेटी
								6. शोभाशेटी, पत्नी—के. एम. शेटी
								7. दीपकशेटी, पुत्र—के. एम. कृष्णाशेटी
								8. अमरनाथशेटी, पुत्र—के. एम. कृष्णाशेटी
								9. रामचन्द्र, पुत्र— पदमनभन
				1/5	निजी	वृक्षारोपण	3541	एम. वी. गोपीनाथन, पुत्र— एम. के. विजयराघवन
				1/6	निजी	वृक्षारोपण	5666	एम. वी. गोपीनाथन, पुत्र— एम. के. विजयराघवन
								रेलवे विभाग को सौंपा गया
				1/7	निजी	वृक्षारोपण	152	मैसूर मर्सेन्टाइल कम्पनी लिमिटेड, प्रतिनिधि संतोष कुमार के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
				1/8	निजी	वृक्षारोपण	1215	बी. पी. प्रकाश, पुत्र— पुट्टास्वामी गौड़ा
				1/9	निजी	वृक्षारोपण	1822	सी. आर. शिवम्मा, पत्नी— दिवंगत पुट्टास्वामीगौड़ा
कुल							641675	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2013

S.O. 3800 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 326(E) dated 6th February 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-suction (ii) and issued under sub-suction (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 48 on the stretch of land from KM 189+500 to KM 328+000 (Hassan -Bantwal Section) in Districts Hassan and Dakshina Kannada in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Times of India" dated the 27th March 2013 and "Prajvani" dated the 27th March 2013 under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the some have been partially considered and some have been partially disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the power conferred by sub-suction (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, the pursuance of the sub-section (2) of the section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling with the stretch of land from KM 189+500 to KM 235+100 (Eachanahalli to Kumbardi Coffee Estate) of National Highway No. 48 in the state of Karnataka

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Square meters)	Name of the land owners/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Hassan	1. Hassan	(1) Eachana-halli	25/4C	Private	Dry	51	Govindgowda s/o Rangegowda
				26/1	Private	NAK	1821	Kothari Madras Limited
				26/2A	Private	Dry	304	1. Venkatramanegowda s/o Thimmarayigowda @ Madappagowda 2. Thirumalashetty s/o Rangashetty 3. Rangegowda s/o Basavegowda 4. Mudlagirigowda s/o Thirumalegowda 5. Rangegowda s/o Basavegowda
				26/2B1	Private	Dry	1113	1. Rangashetty s/o Hanumanthashetty 2. Shakunashetty s/o Hanumanthashetty 3. Kenchashetty @ Rangaswamy s/o Hanumanthashetty 4. Rangaswamy s/o Hanumanthashetty 5. Jayamma w/o Rangashetty 6. Rangashetty s/o Lakshmanashetty 7. Ramashetty s/o Lakshmanashetty

				26/2B2	Private	Dry	3	1. K.N.Narasimhe gowda s/o Shivegowda	
								2. B.Rangegowda s/o Basavegowda	
				28/2	Private	Dry	253	S.Leelavathy w/o Siddaramegowda	
				28/1	Private	Dry	405	1. B.C.Usharani w/o D.V.Kumaraiah	
								2. Nagendra s/o Dasegowda	
								3. Puttaraju s/o Dasegowda	
								4. Manjunatha s/o Dasegowda	
								5. Leelavathy s/o Siddaramegowda	
				29/7	Private	Wet	607	B.C.Usharani w/o Kumaraiah	
				35	Private	Dry	911	1. Rangegowda s/o Rangegowda	
								2. Nanjegowda s/o Rangegowda	
				36/7B	Private	Dry	101	Narasimhaiah s/o Muniswamappa	
				40/2A	Private	Dry	202	C.Ashwathanarayana, Manager	
				40/2B	Private	Dry	455	M.Narasimhaiah s/o Muniswamappa	
				40/1	Private	Dry	202	C.Ashwathanarayana, Manager	
				41/1A	Private	Dry	708	C.Ashwathanarayana, Manager	
				41/1B	Private	Dry	455	K.V.Gopukumar s/o Late Parameshwaraiah	
				43	Govt	Kharab	658	Sarkari Beelu	
				42	Private	Dry	202	1. Mudalaiah s/o Javaraiah	
								2. Manjula w/o Devaraju	
				39/1A	Private	Dry	101	1. C.Ashwathanarayana, Manager	
								2. C.Ashwathanarayana s/o Chinnappa	
								3. Dharmaraj s/o Govindegowda	
				39/2	Private	NAK	152	Venkatappa s/o Manjappa	
				45/1	Govt	Dry	809	Director of Mass Education, Govt. of Karnataka	
				45/2	Private	Dry	202	1. C.Ashwathanarayana s/o Chinnappa	
								2. Rangegowda s/o Venkategowda	
				44/2	Private	Dry	25	C.Ashwathanarayana s/o Chinnappa	
				47	Govt	Kharab	7255	Land already acquired for NH-48 Yagachi River Bridge	
				48	Govt	Planta tion	2805	Sarkari Thopu	
				River	Govt	River	1785	Yagachi Hole	
				(2) Thimma-nahalli	9	Private	Dry	405	Land already acquired for NH-48
					10	Govt	Kharab	1012	Govt Kharab
					11/1	Govt	Kharab	2529	Govt Kharab
					Old Road	Govt	Road	607	Government Road-2
					1/6	Pvt	Dry	405	1. Dyavegowda
									2. Thimmamma
									3. Childrens of Thimmegowda
									4. Son in law of

								Thimmegowda		
				1/5	Govt/ Pvt	Road/ Dry	405	Hombalamma w/o Late Chennegowda		
				1/3	Govt/ Pvt	Road/ Dry	2023	Chennamma w/o Thimmegowda		
				1/2	Govt/ Pvt	Road/ Dry	304	1. Rangegowda s/o Mudligowda		
								2. Jayamma w/o Gowdegowda		
				1/1	Govt/ Pvt	Road/ Dry	202	1. Rangegowda s/o Thimmegowda		
								2. Venkategowda s/o Puttegowda		
								3. Thimmamma w/o Venkategowda		
								4. Thimmegowda s/o Puttegowda		
				1/8	Private	Dry	100	1. Lakshmmamma w/o Puttegowda,		
								2. Thimmamma w/o Venkategowda		
				2/3	Pvt/ Govt	Dry	101	1. Giddamma w/o Venkategowda		
								2. Keshavegowda s/o Venkategowda		
								3. Chennamma w/o Thimmegowda		
								4. Sannegowda s/o Thimmegowda		
								5. Hombalamma w/o Late Chennegowda		
				Road-1	Govt	Road-1	607	Govt old road-1		
				Road-2	Govt	Road-2	405	Govt old road (Voni)		
				2. Alur	(1) Mavanoor	87/3	Private	Dry	25	Giddamma W/o Sannegowda
				87/2		Private	Dry	1518	1. T.S.Rangegowda S/o Sannegowda	
		2. Channegowda S/o Sannegowda								
		3. Krishnegowda s/o Rangegowda								
		4. Gowramma W/o Giddegowda								
		5. Thimmegowda S/o Dyavegowda								
		6. Abdul Majid Khan S/o K.Mohiyuddin Khan								
		7. Neelamma w/o Mogannagowda								
		8. G.S.Vikram S/o G.E. Surendra								
		9. K.P.Satyabhama, w/o Gundappaji @ H.R.Ramu								
		10. Rangaswamy								
		11. Rangegowda								
		12. Mogannagowda s/o Channegowda								
		87/4	Private	Dry	690	1. Neelamma w/o Mogannagowda				
						2. Giddamma w/o Iyanna				
						3. Hombalamma W/o Channegowda				
		87/5	Private	Dry	690	1. H.R.Mahadeva s/o K.C.Rangappa				
						2. K.P.Satyabhama w/o H.R.Gundappaji				
		86	Private	Dry	101	1. H.R.Mahadeva s/o K.C.Rangappa				

							2. K.P.Satyabhama w/o H.R.Gundappaji
							3. G.S.Vikram s/o G.E.Surendra
			85	Private	Dry	3743	K.P.Satyabhama w/o H.R.Gundappaji @ H.R.Ramu
			84	Private	Dry	4660	1. M.S.Channabasavaiah s/o Siddalingaiah
							2. Shivaiah s/o Late Puttaswamaiah
							3. Basavaiah s/o Erathaiah
							4. Shivaprakash s/o Channabasavaiah
							5. Gangamma w/o Siddappa
							6. Channamma w/o Rudraiah
							7. Basavarajaiah s/o Rudraiah
							8. Siddalingaiah s/o Siddalingaiah
							9. Shivabasavaiah s/o Siddalingaiah
							10. M.S. Basavaiah
							11. Channabasavaiah s/o Rudraiah
			93/7	Private	Dry	708	1. Veerabhadregowda s/o Rudregowda
							2. Puppegowda s/o Rudregowda
							3. Basavalingappa s/o Rudregowda
			93/8	Private	Dry	800	1. Rudregowda s/o Shivegowda
							2. M.S.gurusiddappa s/o Shivegowda
							3. Shivakumar s/o Rudregowda
			93/3	Private	Dry	920	1. Veerabhadregowda s/o Rudregowda
							2. Puppegowda s/o Rudregowda
							3. Basavalingappa s/o Rudregowda
			95	Private	Dry	180	1. Shivegowda s/o Eregowda
							2. Loksha S/o Rudregowda
							3. Dharma S/o Rudregowda
							4. Shivakumara s/o Rudregowda
							5. Mallegowda s/o Gurusiddappa
							6. Chandrashekara s/o Gurusiddappa
			96/2A1	Private	Dry	25	Rajashekara s/o Onkaraiah
			97	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	900	Govt. Gomal
			98/2	Private	Dry	560	Patel Eregowda s/o Chennegowda
			99	Private	Dry	665	1. Patel Eregowda s/o Chennegowda
							2. Muslim community Khabarstan
			104	Govt	Kharab	1518	Hethava Katte
			103/1	Private	Dry	607	M.S. Mohammad Khan s/o

					Late Salar Beug
	101/1	Private	Dry/ NAK	2125	K.K. Lokesha s/o Karigowda
	101/2	Private	Dry	7284	K.K. Lokesha s/o Karigowda, Alienated
	100/2	Private	Wet	220	Kalyanamma w/o Puttaswamygowda
	100/1	Private	Wet	675	1. Dyavegowda s/o Annegowda
					2. Thimmegowda w/o Annegowda
					3. B.A. Annegowda s/o Annegowda
					4. Sarojamma w/o Late Annegowda
	92	Private	Dry	4905	1. M.S. Channabasavaiah s/o Siddalingaiah
					2. Basavaiah s/o Erathaiah
					3. Shivaprakash s/o Channabasavaiah
					4. Gangamma w/o S.Siddappa
					5. Vishwanatha s/o Basavaiah
					6. Chinnaswamy s/o M.E.Basavaiah
					7. Chinnamma w/o Late Rudraiah
					8. Shivaiah s/o Puttaswamaiah
					9. Neelakantaswamy s/o Parvathaiah
					10. Siddappa s/o Shanthaiah
	90	Private	Dry	304	Shivaiah s/o Puttaswamaiah
	89	Private	Dry	80	1. Basavaiah s/o Erathaiah
					2. Shivaprakash s/o Channabasavaiah
	88	Private	Dry	110	1. Mallaiyah s/o Siddalingaiah
					2. Shanthaiah s/o Rudraiah
					3. Basavaiah s/o Erathaiah
					4. Shivaprakash s/o Channabasavaiah
					5. Tholachamma w/o Sannegowda
					6. Manjunatha s/o Subbegowda
					7. Rajegowda s/o Ramegowda
					8. Krishnegowda s/o Thimmegowda
					9. Thimmegowda s/o Ajjegowda
					10. Rangegowda s/o Kalegowda
					11. Dollegowda s/o Venkategowda
					12. Patel Thimmegowda
					13. Rangegowda s/o Malaligowda
					14. Karigowda s/o Bettegowda
					15. Giddegowda s/o Chandregowda
					16. T.K.Thimmappa s/o Krishnegowda
					17. Thimmegowda s/o

							Range Gowda
							18. Sannegowda s/o Siddegowda
							19. Krishnegowda s/o Thimmegowda
							20. Maligegowda s/o Range Gowda
							21. Range Gowda s/o Malaligowda
							22. Kalegowda
							23. Rajegowda s/o Ajjegowda
	(2) Bharatha-valli	12	Private	Dry	101		B.K.Ramegowda s/o Kalegowda
		118/2A	Private	Dry	115		1. Hanumanthegowda s/o Puttegowda
							2. Krishnegowda s/o Puttegowda
							3. Mastigowda s/o Puttegowda
							4. Bhyregowda s/o Puttegowda
							5. Srinivasa s/o Puttegowda
		118/1B4	Private	Dry	185		Ramesh s/o Thimmegowda
		118/1B3	Private	Dry	585		Range Gowda @ Rangaswamy s/o Thimmegowda
		118/1B5	Govt	Nala	225		Acquired for Yagachi Nala
		118/1B2	Private	Dry	30		Range Gowda @ Rangaswamy s/o Thimmegowda
		118/1A	Private	Dry	3743		1. B .R.Krishnegowda s/o Range Gowda
							2. Eramma w/o Manjegowda
		116	Private	Dry	3425		1. Mohammed Jafar s/o Sharif
							2. Range Gowda s/o Karigowda
							3. Ningamma w/o Karigowda
							4. Somegowda s/o Ningegowda
							5. Annappagowda s/o Ningegowda
							6. Ningegowda @ Chandregowda s/o Ningegowda
							7. B.K.Puttegowda s/o Kalegowda
							8. B.P.Girish
							9. B.P.Ramesh
							10. B.P.Kantharaj s/o Puttegowda
		114/1	Private	Dry	55		1. Grama Thana Banjaru
							2. Basha Sab s/o Jamal Sab
		112/3	Private	Dry	25		Mudligirigowda s/o Kalegowda
		112/4	Private	Dry	25		Mallamma w/o B.K. Thimmegowda
		112/5	Private	Dry	100		B.T. Yogish s/o B.K.Thimmegowda
		112/1	Private	Dry	115		B.T. Rangaswamy s/o B.K.Thimmegowda
		113	Govt	Kharab	140		Govt. Gundu Thopu
		106	Private	Dry	710		H.P.Ashoka Kumar s/o Puttaswamygowda
	(3) Yadur	88/2	Private	Dry	1416		Y.S. Balagangadhar s/o

								Late Y.S.Shivabasappa	
				88/5	Private	Dry	1113	Abdul Khayyam s/o Late Musara Zaa	
				91/2	Private	Dry	1720	Abdul Khayyam s/o Late Musara Zaa	
				91/1	Private	Dry	1315	1. Y.S. Prakash s/o Y.S.Shantappa	
								2. Y.S. Dinesh s/o Y.S.Shantappa	
				92/1	Private	Dry	965	C.M. Hemakshi w/o B.G.Shivalingappa	
				92/3	Private	Dry	650	H.B.Gopala @ Gopalakrishna s/o Late Dasegowda	
				92/2	Private	Dry	545	1. B.G.Sarvamangala d/o Gurusiddappa	
								2. B.G.Kamala d/o Gurusiddappa	
								3. B.G.Susheela d/o Gurusiddappa	
								4. B.G.Nethravathi d/o Gurusiddappa	
								5. B.G.Gangadharappa s/o Late Patel B.M.Gurusiddappa	
								6. B .G.Pradeep, s/o Gangadharappa	
								7. B.G.Kiran s/o Gangadharappa	
								8. Y.S.Prakash s/o Y.S.Shanthappa	
								9. Y.S.Dinesh s/o Y.S.Shantappa	
				92/6	Private	Dry	595	Susheelamma w/o M.S.Gangadharappa	
				92/4	Private	Dry	1030	Susheelamma w/o M.S.Gangadharappa	
				93/6	Private	Dry	1170	1. Akbar Khan s/o Imam Khan	
								2. Neelesh s/o Veerabhadregowda	
				93/5	Private	Dry	665	M.M.Abdul Khaliq Saheb s/o Zamad Saheb	
				93/4	Private	Dry	580	Aslama Khan s/o Ghouse Khan	
				93/3	Private	Dry	455	Abdul Bahar s/o Imam Saheb	
				93/2	Private	Dry	325	Mohammad Mahajan s/o Gulam Rasheed	
				95/1	Private	Dry	1345	S.M. Vishwanath s/o Late S.R. Mallappa	
				95/2	Private	Dry	607	Mahammad Jafer sadiq	
				94/1	Private	Dry	2428	Mahammad Jafer sadiq s/o Mohammad Budan Saheb Alienated land	
				94/2	Private	Dry	708	Mahammad Jafer sadiq s/o Mohammad Budan Saheb Alienated land	
				(4) Neralakere	11/3	Private	Dry	4165	Gurusiddegowda s/o Annegowda
					9/1	Private	Dry	2280	Gulam Mohammad Wazir s/o Gulam Rashid
					9/2	Private	Dry	385	Heena Mohiyuddin Mazahar w/o Gulam Mohammad
					10	Private	Dry	250	1. Singamma w/o Late Rangaiah
									2. N.R. Rangaiah s/o

					Rangaiah
					3. Rangaiah s/o Rangaiah
	45/1	Private	Dry	1410	Puttamma w/o N.M.Shivappa
	45/2	Private	Dry	1490	Ningamma w/o Gurupadappa
	55/5	Private	Dry	1922	Rajamma w/o Somashekara
	55/4	Private	Dry	360	1. Mohammad Sab
					2. Abdul Rehaman s/o Mustaf
	56/2	Private	Dry	1315	Gurusiddappa s/o Annegowda
	56/1	Private	Dry	708	1. Jayamma w/o Late Puttegowda
					2. Shivaramu s/o Late Puttegowda
					3. Suresh s/o late Puttegowda
	57/14	Private	Dry	25	Manjamma w/o Range Gowda
	57/19	Private	Dry	51	N.K.Kalegowda s/o Kempegowda
	57/18	Private	Dry	94	Sumithra w/o Nagaraj
	57/17	Private	Dry	126	Manjegowda s/o Hanumegowda
	57/4	Private	Dry	1518	H.V.Puttaraju s/o H.T.Venkatesh
	57/1	Private	Dry	809	Manjegowda s/o Hanumegowda
	65/1	Private	Dry	506	Jayakumar s/o Somegowda
	66/1	Private	Dry	165	1. Kempegowda s/o Giddegowda
					2. Kempegowda s/o Late Giddegowda
	66/2	Private	Dry	25	1. Chandramma w/o Neelakantappa
					2. Nagabhushana
					3. N.N.Kumar
	71/1	Private	Dry	304	G.V.Nagashankar s/o G.V.Venkatachala shetty
	71/2	Private	Dry	51	N.K.Jagadeesh s/o Kattigegowda
	71/4	Private	Dry	306	D.V.Sulochana w/o Late N.L.Appajigowda
	71/3	Private	Dry	650	N.C.Yogish s/o N.K.Lakshanegowda
	Village Area	Govt/ Pvt	Road & Dry	735	Abdul Rehaman s/o Mustafa Byari
	1/3.	Private	Dry	607	Rudregowda s/o Shantappa
	2	Private	Dry	809	Isamma w/o Mustafa Byari
	3	Private	Dry	51	1. Thimmaiah s/o Rangaiah
					2. Dasaiah s/o Kengaiah
					3. Eraiah s/o Eraiah
					4. Puttaiah s/o Shakunaiah
					5. Shakunaiah s/o Rangaiah
	4/1.	Private	Dry	300	Ningamma w/o Grupadappa
	4/2.	Private	Wet	275	1.N.V.Thammannagowda s/o Veerabhadrapa
					2. Kantharaju N.C. s/o N.V.Chandrashe karaiah
	5	Govt	Tank	202	Kallukatte Kere
	8/1.	Private	Dry	265	Famida Khatoon w/o Abdul Lathif
	8/2.	Private	Dry	30	Gowramma w/o N.M.Erappa

				92	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	51	Sarkari Gomala
			(5) Chowlagere	40	Private	Dry	151	1. Mahanthegowda s/o Mallegowda
								2. Shivappa s/o Puttaswamygowda
				28	Private	Dry	101	C.R.Mahanthegowda s/o Ramegowda
				29	Private	Dry	55	Shabir Ahamad s/o Shek Mohammad
				27/2	Private	Dry	859	1. Riaz Ahamad s/o Shek Ahamad
								2. Shabir Ahamad s/o Shek Mohammad
				27/1	Private	Dry	405	C.R.Mahanthegowda s/o Ramegowda
				30	Private	Dry	525	Nazir Ahamad s/o Shek Ahamad
				21/1	Private	Wet	140	Sudhakara s/o Nanjundaswamy @ Jayanna
				22/2	Private	Dry	1720	Sakamma w/o Puttaswamygowda
				23	Private	Dry	2529	Mahanthegowda s/o C.R.Ramegowda
				24	Private	Dry	145	Mahanthegowda s/o Mallegowda
				16/1	Private	Dry	911	C.R.Mahanthegowda s/o Ramegowda
				76/1	Private	Dry	1600	1. Mahanthegowda s/o Ramegowda
								2. Mallamma w/o Mallegowda
								3. Bhagya Mohankumar @ Bhagya w/o Mohankumar
				77	Private	Dry	725	1.C.V.Rudrappa s/o Veeregowda
								2. Shadakshari s/o Veeregowda
				112	Private	Dry	506	1. Veerabhadraraiiah
								2. Veerabhadraraiiah s/o Rudraraiiah
								3. Devaraju
								4. Kumaraswamy s/o Dyavamma
								5. Shadakshari s/o Veeregowda
				Village Area	Govt/ Pvt	Road & Dry	430	Grama Thana Govt.
				111/6	Private	Dry	2905	1. C.M.Gurumurthy s/o C.R.Mahanthegowda
								2. C.V.Shadakshari s/o Eregowda
				111/5	Private	Dry	2125	1. C.M.Nagaraj s/o Mahanthegowda
								2. C.M.Shankarappa s/o Mahanthegowda
				111/4	Private	Dry	1922	Parvathamma w/o Ramegowda
				106	Private	Dry	2529	1. Erabhadraraiiah @ Paraiah s/o Veerabhadraraiiah
								2. Veerabhadraraiiah s/o Rudraraiiah
								3. Devaraj s/o Kumaraswamy, mother Dyavamma
				104/3	Private	Dry	708	Dhananjaya s/o Thirumalaiiah

				104/2	Private	Dry	2226	Channaveerappa s/o Veerabhadrapa
				107	Private	Dry	126	1. Channaveerappa s/o Veerabhadrapa
								2. Rajamma w/o Channaveerappa
								3. Nethravathy w/o H.C.Girish
				104/1	Private	Dry	1922	1. Dhananjaya s/o Thirumalaiah
								2. Channaveerappa s/o Veerabhadrapa (Anubhava)
				101/1A3	Private	Dry	320	K.M.Manjunatha s/o A.M.Mogannagowda
				101/1A 25	Private	Dry	202	D.Sharavathy w/o P.Krishnamurthy
				101/1A 35	Private	Dry	202	Venkataramu s/o Range Gowda
				101/1A 34	Private	Dry	101	Manjegowda s/o Range Gowda
				101/1A 33	Private	Dry	51	Kantharaju s/o Thimmegowda
				101/1A 32	Private	Dry	76	Basavaraju s/o Thimmegowda
				101/1A 31	Private	Dry	177	1. Ramesh s/o Dasegowda
								2. Venkatesh s/o Dasegowda
								3. Tejavathy D/o Thimmegowda
				101/1B	Private	Dry	253	1. K.V.Erappa s/o Basappashetty
								2. B.Nagaraj s/o Basappashetty
								3. Vasudeva s/o Basappashetty
								4. B.Jagadish s/o Somashekar
				99/2	Govt	Forest/ NAK	400	Residential Quarters belongs to Forest Department
				99/1	Private	Dry	1625	Ningamma w/o Nanjappagowda
				103/5	Private	Dry	1012	Veerabhadraiah s/o Rudraiah
				103/4	Private	Dry	135	Veerabhadraiah s/o Rudraiah
				103/1	Private	Dry	620	1. Veerabhadraiah s/o Rudraiah
								2. Eraiah s/o Rudraiah
				103/2	Private	Dry	1012	1. Eraiah s/o Rudraiah
								2. Devmma w/o Eraiah
								3. Renuka Kumaraswamy s/o Eraiah
				78/1	Private	Dry	3642	Jayamma w/o Krishnegowda
				78/2	Private	Wet	1619	D.B.Dinesh s/o Byregowda
				78/3A	Private	Wet	2327	D.B.Dinesh s/o Byregowda
				78/3B	Private	Dry	1315	(Alienation) Chandan RCC Castin, Brick
				78/4	Private	Dry	911	D.B.Dinesh s/o Byregowda
				78/5	Private	Dry	1720	D.B.Dinesh s/o Byregowda
				78/6	Private	Dry	1113	M.P.Karunakumar s/o B.Prakash
				78/10	Private	Dry	1210	M.P.Karunakumar s/o B.Prakash
				78/7	Private	Dry	2023	Shivappa s/o

							Puttaswamygowda
			78/8	Private	Dry	1619	C.R.Mananthegowda s/o Ramegowda
			78/9	Private	Dry	50	Kantharaju s/o Shivananjappa
			89/5B	Private	Dry	51	1. Jayamma w/o Krishnegowda 2. Jayamma w/o Hanumanthegowda
			89/6	Private	Dry	925	Subbegowda s/o Ningegowda
			89/7A	Private	Dry	305	1. Jayamma w/o Subbegowda 2. Anand s/o Basappachar 3. Purrushotham s/o Basappachar
			75/1	Private	Dry	720	1. Faridakhan w/o Late Shahanavaz Khan 2. Shoyab Ahamad s/o Shahanavaz Khan 3. Shoyan Khan s/o Shahanavaz Khan 4. Mujubul s/o Shahanavaz Khan
			66	Private	Dry	3743	1. D.S.Jayanna s/o Shivananjappa 2. D.S.Kantharaju s/o Shivananjappa 3. D.S.Nanjundappa s/o Shivananjappa
			74/6	Private	Dry	760	B.S.Jayanna s/o Shivananjappa
			64	Private	Dry	1775	1. C.V.Rudrappa s/o Eregowda 2. Fyroz Ahamad s/o Ayad Sab 3. C.V.Rudrappa s/o Eregowda 4. C.V.Shanmukha s/o Eregowda 5. C.V.Virupaksha s/o Eregowda
			24	Private	Dry	506	Mahanthegowda s/o Mallegowda
			25/1	Private	Dry	2226	Parvathamma w/o Ramegowda
			25/2	Private	Dry	1225	A.C.Thandavesh s/o Parvashetty
			26/3	Private	Dry	911	1. Mahanthegowda s/o Mallegowda 2. Shivappa s/o Puttaswamygowda
			26/2	Private	Dry	911	C.R.Mahanthegowda s/o Ramegowda
			26/1	Private	Dry	809	C.R.Mahanthegowda s/o Ramegowda
			42/2	Private	Dry	2023	H.P.Ashok Kumar s/o H.S.Puttaswamy
			42/1	Private	Dry	545	H.P.Mohan s/o Puttaswamygowda
			41	Private	Dry	935	1. Mahanthegowda s/o Mallegowda 2. Shivappa s/o Puttaswamygowda 3. D.S.Kantharaju s/o D.N.Shivananjappa
		(6) Samadale	34/1	Private	Dry	30	Santhe (Govt)
			Road	Govt	Road	225	1. B.R.Annajigowda s/o

								B.K.Rajegowda
								2. Forest checkpost
				Village Area	Govt/ Pvt	Road & Dry	607	1. Grama Tana (village area)
								2. Satish s/o Kempegowda
								3. Bus Stop
								4. Palaksha s/o S.P.Mallappa
								5. Shambhavi w/o Mahabalashetty
								6. D.P.Madhu s/o Puttaraju
								7. B.M.Puttaraju s/o Mallappashetty
								8. Basavaraju s/o Chandrashetty
			(7) Byrapura	9/5.	Govt/ Pvt	NAK	202	1. Alienated Land
								2. Venkatamma w/o Late Channegowda
								3. Gangamma w/o Basappashetty
				9/4A	Govt	Kharab	126	Govt
				9/4B	Private	Dry	253	Mallashetty s/o Basavashetty
				9/3	Private	Dry	126	1. Vatehole Project
								2. M.B.Girija d/o Late Eregowda
				9/1	Private	NAK	152	1. Alienated Land
								2. K.P.Puttaswamy gowda s/o Chikkegowda
				1/19	Private	Dry	304	V.Rangegowda s/o Thimmegowda
				1/11	Private	Dry	936	1. Dyavegowda s/o Nanjegowda
								2. Puttaswamygowda s/o Nanjegowda
								3. Chandregowda s/o Kuruda Javaregowda
								4. T.Rangegowda s/o Thimmegowda
								5. Dyavamma w/o Late Erabhadregowda @ Veerabhadregowda
				1/14	Private	Dry	405	Bhoodevamma w/o Kempegowda
				1/20	Private	Dry	228	Puttegowda s/o Appegowda
				1/18	Private	Dry	202	1. Dyavegowda d/o Erabhadregowda
								2. Somashekara s/o Eregowda
				1/15	Private	Dry	253	Subhadramma w/o Dyavegowda
				1/17	Private	Dry	329	Thimmegowda s/o Honnegowda
				5	Private	Wet	1113	Chandregowda s/o Javaregowda
				4/17	Private	Wet	50	Dyavegowda s/o Nanjegowda
				4/16	Private	Wet	480	Lakshamma w/o Rudregowda
				4/15	Private	Wet	531	Dyavegowda s/o Nanjegowda
				4/14	Private	Wet	354	Thimmegowda s/o Honnegowda
				4/12	Private	Wet	215	1. Dyavegowda s/o Nanjegowda
								2. Puttaswamygowda s/o Nanjegowda

				2/2	Private	Dry	3136	B.R.Annajigowda s/o Rajegowda
				2/1	Private	Dry	4350	Bhoodevamma w/o Kempegowda
				7	Private	Dry	2023	1. B.R.Annajigowda s/o B.K.Rajegowda
								2. Bhoodevamma w/o Kempegowda
								3. S.M.Devarajegowda s/o Melegowda
								4. Vatehole Project
								5. Veeresh s/o Lingarajachar
								6. Subbegowda s/o Thimmegowda
								7. H.C.Srinivasa s/o Chikkegowda
								8. Tayamma w/o Shivanna
								9. Giri
								10. Girish s/o Kempegowda
				8/5	Private	NAK	354	Anubhavaders:-
								1. Rudregowda s/o Marigowda (Anu)
								2. B.B.Anandachari s/o Basappachar
								3. Krishnegowda s/o Thimmegowda
								4. Rajegowda s/o Krishnegowda
								5. Srinivasa s/o Mahabalashetty
								6. M.Chandrashekar s/o Mahabalashetty
								7. M.Balakrishna s/o Mahabalashetty
								8. M.Manjunatha s/o Mahabalashetty
								9. Appajigowda @ Annajigowda s/o B.K.Rajegowda
								10. Dheeresh s/o Lingarajachar
				8/1	Private	Dry	25	1. Nanjamma w/o Ningashetty
								Anubhavaders:-
								1. Venkategowda s/o Krishnegowda (Anu)
								2. Thimmamma w/o Doddaiiah (Anu)
								3. Manipurada Krishnegowda (Anu)
			(8) Soppinahalli	40	Govt	Temple	30	Channarayaswamy Katte
				39/2	Private	Dry	195	1. Neelakanta s/o Mallappashetty
								2. N.E.Jayanthi w/o Neelakanta
				39/3	Private	Dry	30	Shivakumar s/o Mallappashetty
				42/1	Private	Dry	95	D.B.Ningaraju s/o D.B.Byregowda
			(9) Bachana halli	7	Private	Dry	430	1. D.B.Lingaraju s/o D.N.Byregowda
								2. H.J.Sumana w/o D.B.Lingaraju
				6	Govt	Tank	785	Ura Bagilu Kere
				59/2	Govt/ Pvt	Road & Dry	202	Jyothi Gurudev w/o Gurudev
				Nala	Govt	Nala	1200	Government Nala

				55/1	Private	Dry	40	1. NH-48
								2. Abdul Rashid s/o Mohammad Dastagir (Anu)
				54/2A	Govt	Dry	30	1. NH-48
								2. Weigh Bridge
				54/2B	Govt	Dry	225	Weigh Bridge
			(10) Shingapura	13	Govt	Dry	1214	Already acquired for NH-48
				8	Govt	Graveyard	640	Graveyard
				Nala	Govt	Nala	1175	Govt Nala/River
				9/2.	Private	Sa.Ni. Wet	25	Puttaswamygowda s/o Ramegowda
				9/1.	Private	Sa.Ni. Wet	90	1. Kamalamma w/o Yogesh
								2. Gowramma w/o Late Rajegowda
								3. Ningaraju s/o Rajegowda
				4/1.	Private	Dry	720	1. Gowramma w/o Late Rajegowda
								2. Ningaraju s/o Rajegowda
				6	Private	Dry	8225	1. K.M.Devaraju s/o Manjegowda
								2. Sannegowda s/o Dyavegowda
								3. Chinnaswamy s/o Ramaswamy
								4. Devaraju s/o Dyavegowda
								5. Govt. Gomala
								6. Mallikarjunaiah s/o Mallaiah
				188	Private	Dry	4147	1. Shaneshwara Temple
								2. A.Ramesh s/o Late Annegowda
								3. Sarkari Kharabu
				3/1.	Private	Dry	440	1. K.A.Narayana s/o Late Annegowda
				10	Private	Wet	275	1. Jayamma w/o Shivananjegowda
								2. Shanthegowda s/o Channegowda
								3. N.H.48
			(11) Kanadsa halli	7	Govt	Kharab	90	1. Gomala
								2. Manjegowda s/o Javaregowda (Anubhava)
				4/1.	Private	Dry	2570	K.M.Devaraju s/o Manjegowda
				2/1.	Private	Dry	1720	1. Patel Nanjegowda s/o Dyavegowda
								2. Ramegowda s/o Nanjegowda
				1/4.	Private	Dry	970	K.Bharath s/o K.D.Krishnamurthy
				1/3.	Private	Dry	40	1. Puttaraju s/o Chikkegowda
								2. Sannegowda s/o Chikkegowda
								3. Shekar s/o Chikkegowda
								4. K.V.Dyavegowda s/o Veerabhadregowda
				Village Area	Govt/ Pvt	Road & Dry	105	1. Bus Stop
								2. Shankaregowda s/o Shivegowda
								3. Siddaramegowda s/o Shivegowda
								4. Basavegowda s/o

							Shivegowda
			14/4	Private	Dry	370	1. Chikkegowda s/o Giddegowda
							2. Devarajegowda s/o Giddegowda
							3. Manjegowda s/o Giddegowda
							4. Shivegowda s/o Giddegowda
			16/4	Private	Dry	45	1. Dyavegowda s/o Eregowda
							2. Parvathamma w/o Devegowda
			16/5	Private	Dry	40	S.L.Devarajegowda s/o Lakshmegowda
			13/1	Private	Dry	1669	S.C.Ramachandre gowda s/o Late Puttegowda
			13/2	Private	Dry	140	Devamma w/o Late Doddegowda
			13/3	Private	Dry	220	S.T.Thimmegowda s/o Late Thirumalegowda
			11/2A3	Private	Dry	705	K.S.Nandeesh s/o Siddaramegowda
			11/2A2	Private	Dry	809	K.S.Sandesh s/o Siddaramegowda
			11/2B	Private	Dry	607	1. Nanjaiah s/o Thimmaiah 2. Siddaiah s/o Siddaiah 3. Channaiah s/o Channaiah
			11/3.	Private	Dry	531	1. Patel Nanjegowda s/o Dyavegowda
							2. Krishnamurthy s/o Nanjegowda
			10/5.	Private	Dry	100	Hemavathi w/o Ramegowda
			10/4.	Private	Dry	65	1. K.Devegowda s/o Eregowda
							2. K.Abbas s/o Late Mohammad
							3. K.Nissar s/o Abdul Razak
			10/6.	Private	Dry	30	1. K.Abbas s/o Late Mohammad
							2. K.Nissar s/o Abdul Razak
			10/7.	Private	Dry	60	1. K.Abbas s/o Late Mohammad
							2. K.Nissar s/o Abdul Razak
			8	Private	Dry	1230	H.R.Rajegowda s/o Late H.Rangappa
		(13) Chennena- halli	16	Govt/ Pvt	Kharab	101	Government
			15	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	253	Government
		(14) Range- nahalli	11	Govt/ Pvt	Kharab	51	1. Gomala
							2. A.S.Basheer s/o Aboobekar
		(15) Honnavalli	1	Govt/ Pvt	Kharab Grave yard & Dry	24475	1. Govt Gomala
							2. Kengaiyah
							3.H.S. Jaya.W/o Shivappa
							4. Basavaraju S/o R. Sannappagowda
							5.Shivegowda S/o R.Sannappagowda

[illegible]

								30. A.S.Bashir S/o Aboobakar
								31. Sukumaran (Anu)
								32. Yesu Devalaya
								33. Sequara S/o A.G.Sequar
								34. Ramashetty S/o Basavashetty
								35 H.M.Annegowda S/o Mallegowda (Khatha)
								36 Ramashetty S/o Basavashetty (Anu)
			177	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	11128		1. Muslim Grave yard (Anu)
								2. Public Grave yard
								3. J.T.Kumara (Anu)
								4. Gowramma w/o Natraju (Anu)
								5.Hotel toorist (Anu)
								6.Manjegowda S/o Ramegowda. (Anu)
								7. Rangashetty S/o Hanumashetty. (Anu)
								8. Lakshmana S/o Narayanarao (Anu)
								9. Government Gomala
	3. Saka-leshpur	(1) Hasuvalli	43/1C	Private	Dry	30		Meenakshi w/o Devappa
			54	Private	Dry	690		Kathedars:
								1. Siddamma w/o Late Siddaiah
								2. B.E.Ningaraju s/o Eraiah
								3. Dananjaya s/o Thimmaiah
								4. Devasi s/o Anthoni
								Anubhavadars:
								1. Krishnamurthy s/o Late Siddaiah
								2. Sanjeeva
								3. Javaraiah s/o Eraiah
								4. Devadas s/o Sankappa Poojari
			90	Private	Dry	2529		A.Narayanarao s/o Late M.R.A.Rao
			91	Private	Dry	405		A.Narayanarao s/o Late M.R.A.Rao
			55/1A	Private	Dry	1000		Manjaiah s/o Lakkaiah
			55/1B	Private	Dry	253		Rekha Maheshkumar s/o Maheshkumar B.N.
			55/1C	Private	Dry	607		1. Javaraiah s/o Thimmaiah
								2.. Sannajavaraiah s/o Rangaiah
								3. Govindaiah s/o Rangaiah
								4. Venkataiah s/o Rangaiah
								5. C.T.Jayapala s/o Thimaiah
								6. Ningamma w/o Thimaiah
			55/2	Private	Dry	354		K.M.Sankappa s/o Late Mundappa Rai
			69	Govt	Tank	607		Government Tank
		(2) Ballu	144	Private	Dry	25		B.G.Siddarth s/o Guruprakash
			Road	Govt	Road	1000		Sarkari Oni
			211/2	Private	Dry	2428		B.N.Basavanna s/o B.B.Nanjappa
			209	Private	Dry	1120		1. B.N.Puttaswamy s/o B.B.Nanjappa
								2. B.N.Lingaraju s/o B.B.Nanjappa

				207/1	Private	Planta tion	405	B B.Devaraj s/o B.S. Basappa
				207/2	Private	Planta tion	202	B.C.Sudheer s/o Late B.Chandrappa @ Chandrashekara
				207/3	Private	Planta tion	1619	Radhamma w/o Late B.Chandrappa @ Chandrashekara
				207/4	Private	Planta tion	202	B.C.Suneel s/o Late B.Chandrappa @ Chandrashekara
			(3) Yadehalli	142	Private	Planta tion	30	B.N.Lingaraju s/o B.Bananjappa
				143	Private	Planta tion	190	B.S.Basavaraju s/o B.Shivappa
				144	Private	Planta tion	1720	1. B.Kalyan s/o B.N.Basappa 2. B.Devaraju s/o B.N.Basappa
				145/1	Private	Planta tion	2428	B.Kalyan s/o B.N.Basappa
				145/2	Private	Dry	1380	B.Basavaraju s/o B.S.Basavegowda
				Village Area	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	2340	1. Kamalamma w/o B.N.Siddaiah
								2. Mohith s/o Late Puttaswamaiah
								3. Dyavamma w/o Late Thammaiah
								4. Shruti d/o Late Puttaiah
								5. Puttamma w/o Late B.N.Siddaiah
								6. Prabhakarashetty s/o Lingappashetty
								7. Gowramma w/o Late Nagappa
								8. Vedavathi w/o Late Manjappa
								9. Grama Thana
				149/2	Private	Dry	101	B.N.Puttaswamy s/o Late Nanjappa
				149/3	Private	Dry	30	B.N.Puttamma d/o Late Nanjappa
				208	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	1619	1. Sarkari Gomala 2. Horticulture Department
				238	Private	Dry	4180	1. Gowramma w/o Channabasappa 2. H.N.Sumati w/o Late Ningaraju
				156	Private	Dry	1113	Basamma w/o Basavegowda
				157	Private	Dry	3642	B.Shantharaju s/o Basavegowda
				160	Private	Dry/ Planta tion	2023	1. B.Shantharaju s/o Basavegowda 2. B.M.Shashirekha
				206	Private	Dry	4047	B.S.Rohith s/o Mr.Gn. Kathyani
			(4) Bage	158	Govt/ Pvt	Gravey ard & Church	4330	Church and Graveyard
				22	Govt/ Pvt	Kharab	5564	1. Government Gomala 2. Hindus Graveyard (Anu)
				154	Private	Dry	510	B.S.Kathyini w/o Shivakumar

				21	Private	Wet	2327	B.S.Kathyini w/o Shivakumar
				156	Govt/ Pvt	Kharab	3830	1. Government Gomala
								2. Vesliyas Methodian Church
								3. B.A.Ramakrishna s/o Sheshapoojari
								4. Srinivasa s/o Keshavaiah
								5. Sadananda Poojari
								6. Krishnegowda
								7. Vesliyas Methodian Church Prayer Hall
				Road	Govt	Road	230	Government
				138	Private	Dry	2690	1. M.Nandisha Bllu s/o B.C.Mallegowda
								2. Sulochana Ramakrishna (Anu)
								3. Sadananda Poojari
								4. Tata Coffee Ltd
								5. M.Nandisha Bllu s/o B.C.Mallegowda
				157	Govt	Kharab	2960	1. Govt PWD Quarters
								2. Govt Primary School
								3. Gopinatha s/o Subramanya
								4. B.A.Gangadhara
								5. B.Puttaiah
								6. Jayananda
								7. Gopalashetty
								8. Bage Grama Panchayath
								9. Meenakshi & Others
								10. Victor Dikunha s/o Jun Dikunha
								11. Government
			(5) Aluvalli	51	Private	Dry	3080	1. Chandrappa s/o Mallegowda
								2. A.M.Jagadish s/o Mallegowda
								3. Bhagyamma w/o Late A.M.Kumara
								4. Paramesha s/o Chandrappa (Anubhava)
								5. Shashikumar s/o Erappa Poojari (Anubhava)
								6. B.E.Koragappa s/o Erappa Poojari (Anubhava)
				52	Private	Dry	4648	M.B.Harish s/o M.Basappa
				53/2	Private	Dry	1113	M.B.Divakara s/o M.Basappa
				54	Private	Dry	151	1. JSS, Mysore
								2. M.B.Harish s/o M.Basappa (Khathe)
			(6) Gante bommana halli	1	Private	NAK	12370	Sri. Shivaratri Deshikendra Mahaswamigalu
				2	Private	Dry	1210	1. B.C.Mallegowda s/o Basavegowda
								2. Meghadoota s/o B.C.Mallegowda
				8/1	Private	Dry	1012	M.B.Divakara s/o M.Basappa
				8/2	Private	Dry	188	1. B.C.Mallegowda s/o Basavegowda
								2. Meghadoota M.Ballu s/o B.C.Mallegowda
				15	Private	Dry	278	M.B.Divakara s/o M.Basappa
			(7)	23	Govt/	Kharab	50	Sarkari Gomala

			Gulagalale		Pvt	& Dry		
				24	Private	Dry	1214	K.B.Jayachandra s/o K.M.Basavaraju
				25	Govt	Graveyard	1416	Reserved for Muslim Burial Grounds
				Nala	Govt	Nala	505	Sarkari Kharabu
				26	Private	Dry	3743	1. A.R.Sadashivananda s/o S.Ramanna
								2. Mallaiah
								3. Komala
								4. Umesh
								5. Saroja
				1/1	Private	Dry & Wet	529	1. Neelakantegowda s/o H.Eregowda
								2. Nagamma w/o Nanjegowda
								3. Basavaraju s/o Nanjegowda
								4. Somama w/o Chennegowda
								5. G.E.Rudregowda s/o Eregowda
								6. G.S.Pushpa w/o G.E.Shivappagowda
								7. Eregowda s/o Halegowda
								8. Basavaraju s/o Nanjegowda
								9. Ningappa s/o Late Channegowda
								10. Palaksha s/o Eregowda
								11. D.H.Ramegowda s/o Devegowda
								12. H.B.Umesh s/o Byrappa
								13. Moyuddin Byari s/o Abubakar
								14. G.M.Ibrahaim s/o Moyuddin Byari
				28/1	Private	Dry	4147	G.S.Pushpa w/o G.E.Shivappagowda
				28/2	Private	Dry	680	Madhusudana s/o Sridhara
				31	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	150	1. Basavaiah s/o Doddabasavaiah
								2. Hoovamma w/o Malaiah
								3. Narendra s/o Kenchegowda
								4. Sarkari Gomala
				32	Private	Dry	2010	H.K.Manjunatha s/o Kenchegowda
				86	Private	Dry	1186	1. Vishwanatha s/o Raman
								2. Shivanna s/o Joolaiah
								3. Ningaraju s/o Malaiah
								4. Hoovamma w/o Malaiah
								5. Siddaiah s/o Basaiah
								6. Kumara s/o Basaiah
								7. Basamma w/o Devaraju
								8. Gomala
				85	Private	Dry	101	1. Byamma w/o Joolaiah
								2. Shivamma w/o Siddaiah
								3. Shivanna s/o Joolaiah
				33	Private	Dry	1010	Devamma w/o Puttaswamygowda
				37	Private	Dry	950	Devamma w/o Puttaswamygowda
				36	Private	Dry	3020	1. Jokob Menezes
								2. Fathima w/o Pakru Beri
								3. Sharadamma w/o Mahalingappa

								4. G.M.Surendra s/o Mahalingappa
								5.G.M.Sridhara s/o Mahalingappa
								6. G.M.Ramesh s/o Mahalingappa
								7. G.M.Shashidhara s/o Mahalingappa
								8. G.M.Ravindra s/o Mahalingappa
								9. Sanjeevi w/o Dyavappachar
								10. Krishnarao
								11. Lokesh
								12. Robart Vegas
								13. M.J.Francis s/o Joseph
								14. Alfán D'souza s/o Joseph D'souza
								15. Babu
								16. Manjappa
								17. Guruva Kepu
								18. Taniya s/o Kukra Mestri
								19. G.M.Surendra s/o Mahalingappa
								20. G.M.Sridhara s/o Mahalingappa
								21. G.M.Ramesh s/o Mahalingappa
								22. G.M.Shashikumar s/o Mahalingappa
								23. G.M.Ravindra s/o Mahalingappa
								24. Nambikemari s/o Rayappa
								25. Abbas s/o Yakhob
								26. Sanjeevini w/o Devappachar
				38	Private	Dry	720	K.B.Kamala w/o K.M.Basavaraju
				39/1	Private	Dry	570	Poornima w/o K.M.Basavaraju
				39/3A	Private	Dry	405	1. Jayananda s/o K.P.Subbanna 2. Divakara s/o Babumohan
				39/3B	Private	NAK	90	1. Jayananda s/o K.P.Subbanna 2. Divakara s/o Babumohan
				40	Private	Dry	540	K.B.Kamala w/o K.M.Basavaraju
				35/4	Private	Wet	708	Jayananda s/o K.P.Subbanna
				35/5	Private	Wet	607	Basamma w/o Rudregowda
				35/6	Private	Wet	115	K.B.Kamala w/o K.M.Basavaraju
				43	Govt	Kharab	506	Sarkari Gomala
				42	Private	Dry	410	R.Chandrashekara s/o R.Lakshmipathigowda
				44	Private	Dry	3642	R.Chandrashekara s/o R.Lakshmipathigowda
				Nala	Govt	Nala	911	Government Halla
				Nala	Govt	Nala	1012	Government Nala
			(8) Matasagara	30	Private	Wet	2760	Sharmin Yunus w/o Yunus Zia
				29	Private	Planta tion	1720	1. James Kholaso 2. Hobart Goviyas (Anu)
				28	Private	Planta	6576	1. James Kholaso

						tion			
								2. Hobart Goviyas (Anu)	
				26	Private	Planta tion	2350	1. James Kholaso	
								2. Hobart Goviyas (Anu)	
				16/1	Private	Planta tion	5564	Hosur Coffee Estate	
				25	Private	Coffee Planta tion	6300	Coffee Board	
				24	Govt	Tank	190	Government Tank	
				33	Private	Planta tion	220	1. James Kholaso	
								2. Hobart Goviyas (Anu)	
				31	Private	Dry/ Wet	1310	1. James Kholaso	
								2. Hobart Goviyas (Anu)	
				(9) Hosur Coffee Estate	1	Private	Planta tion	1821	Hosur Estate
				(10) Kollalhalli	46	Private	Planta tion	6677	Ossur Estate
					47	Private	Planta tion	5160	Ossur Estate
					48	Private	Planta tion	2630	Ossur Estate
			49/2		Private	Planta tion	1467	M/s Ossur Estate, Chairman, Jiaulla Sheriff	
			49/1		Private	Planta tion	911	M/s Ossur Estate, Chairman, Jiaulla Sheriff	
			42		Private	Dry & Planta tion	51	Mohidil Abbu and Ossur Estate	
			51		Private	Planta tion	2125	Ossur Estate	
			50		Private	Planta tion	3339	Ossur Estate	
			Road		Govt	Road	1518	1. Krishna Bandari s/o Siddu Bandari 2. Abdul Khadar s/o Maidinabba 3. Anvaral Islam Arabbi Masjid 4. Girijamma w/o Raju 5. K.A.Ibrahim s/o Akram Byari 6. Bus Stand K.R.Satishshetty s/o Rajashetty 7. Government Road	
			60		Govt/ Pvt	Kharab & Dry	13861	1. Gomala	
								Anubhavaders: 2. B.R.Basavaraju s/o B.Rajashekar 3. H.P.Sangappa s/o Puttaswamygowda 4. Raghunathashetty s/o Dasashetty 5. Shekarshetty s/o Dasashetty 6. Anu: Muniyamma w/o Annamalai 7. Mohammad Rafiq s/o Umarabba 8. K.M.Ibrahim s/o Mohidinabba 9. Krishna Bandari s/o	

							Siddu Bandari
							10. Abdul Khadar s/o Maidinabba
							11. Government Road
							12. Anvaral Islam Arabbi Masidi
			61/2	Private	Dry	3541	B.Rajashekar s/o B.Basavaraju
			100	Private	Dry	1366	1. B.B.Mallanna
							2. B.Rajashekar
			62	Private	Dry	11220	1. B.B.Mallanna
							2. B.Rajashekar s/o Basavaraju
							3. B.R.Basavaraju s/o B.Rajashekar
			63	Private	Dry	2529	B.B.Mallanna s/o B.Basavaraju
	(11) Malali		384/1	Private	Dry	481	M.N.Manjunatha Shetty s/o Ningappashetty
			384/2	Private	Dry	6172	Vishal Bellur
			387/3	Private	Dry	3541	M.N.Manjunatha Shetty s/o Ningappashetty
			381	Private	Dry	6779	M.N.Manjunatha Shetty s/o Ningappashetty
			365/1	Private	Wet	1650	Mamatha Ashok w/o S.S.Ashok Kumar
			367	Private	Wet	2934	S.A.Nagarjuna, M.G.Father S.S.Ashok Kumar
			368	Private	Wet	260	S.S.Ashok Kumar s/o S.S.Siddappa
			370/1	Private	Wet	840	Mamatha Ashok w/o S.S.Ashok Kumar
			370/2	Private	Wet	304	Kondaiah s/o Kollaiah
			362	Private	Plantation	1690	M.S.Vijayashnakar s/o Shivappa
			360	Private	Plantation	3642	M.S.Vijayashnakar s/o Shivappa Bykere Nanjamma
			191/2	Private	Wet	2230	S.H.Puttaraju s/o Huchappashetty
			191/1	Private	Wet	227	S.H.Puttaraju s/o Huchappashetty
			192	Private	Wet	1740	S.Manjesh s/o Sandesh Nagaraj
			193	Private	Wet	809	M.S.Vijayashnakar
			Nala	Govt	Nala	304	NH-48
			197	Private	Wet	2440	S.S.Harishchandra s/o H.V.Subbegowda
			198	Private	Wet	2720	S.Vijayalakshmi w/o S.K.Kumaresh Babu
			223	Private	Wet	304	Jagadeesh s/o Ramappa
			199	Private	Wet	1113	Shylashri w/o L.Srinivasa Murthy
			221/4	Private	Wet	1214	M.N.Shivappa s/o Nanjegowda
			221/3	Private	Wet	1140	M.B.Lingaraju
			221/2	Private	Wet	1771	M.R.Jagadish s/o Ramappa
			221/1	Private	Wet	25	M.B.Paramesha
			200/1	Private	Wet	30	M.V.Dharshan s/o M.B.Virupaksha
			222	Private	Wet	355	M.B.Virupaksha
			220	Private	Wet	1400	M.S.Vijayashnakar
			227	Private	Wet	1619	Meenakshi w/o Mallappagowda
			219/2	Private	Wet	530	M.R.Shivananda s/o Ramappa
			219/3	Private	Wet	730	Eraiah s/o Nagaraju
			228	Private	Wet	1640	H.V.Manjula w/o Late

					M.S.Chandrashekar
261/2	Private	Wet	304	1. M.P.Gangadhara	2. NH-48
Road	Govt	Road	460	Land already acquired for Bypass road.	
260/2	Govt/ Pvt	Road & Wet	354	1. M.P.Gangadhara	2. NH-48
259	Govt/ Pvt	Road & Wet	202	1. NH-48	2. M.Devaraju s/o Shivaprakash
239/3	Govt/ Pvt	M.I.W.	340	1. NH-48	2. Dyvappa s/o Siddegowda
240	Govt/ Pvt	M.I.W.	260	NH-48	
242/1	Govt/ Pvt	M.I.W.	30	NH-48	
242/2	Private	M.I.W.	25	Virupaksha s/o Mogappagowda	
172/1	Govt/ Pvt	M.I.W.	76	1. Gangadhara s/o Ramappa	2. NH-48
172/2	Govt	Road	50	Acquired for NH-48	
172/3	Govt	Road	90	Acquired for NH-48	
175/3	Govt/ Pvt	M.I.W.	30	1. NH-48	2. Parvathamma w/o Devappa
175/2	Govt/ Pvt	M.I.W.	30	1. NH-48	2. M.M.Shivaprakash
Road	Govt	Road	160	Govt Road	
162/1	Govt/ Pvt	Plantati on	60	1. NH-48	2. Vasantha Kumara
				3. Sadananda	4. Sanneraiah s/o Channaveeraiah
Road	Govt	Road	60	Govt Road	
108	Govt/ Pvt	Road & Wet	180	1. NH-48	2. Jagadeesh s/o Ramappa
				3. Shivananda s/o Ramappa	4. Gangadhara s/o Ramappa
111/1	Private	Wet	220	M.S.Dyavappa s/o Siddegowda	
110/1	Private	Wet	60	NH-48	
115/1	Private	Wet	140	1. NH-48	2. Dyavegowda s/o Siddegowda
119/2	Private	Wet	110	Acquired for NH-48	
124	Private	Wet	202	Mallamma w/o Beeraiah	
131	Govt/ Pvt	Wet	660	1. M.S.Chandrashakar	2. Kenchamma w/o Siddaiah
132	Govt/ Pvt	Wet	400	1. Manju s/o Niravanaiah	2. M.S.Chandra shakar
				3. Kenchamma w/o Siddaiah	
133/1	Private	Wet	30	1. Shivanna s/o Mallaiah	2. M.P.Hulkodaiah s/o Hulkodaiah
				3. Parvathamma w/o Late M.P.Siddaiah	

				134	Govt/ Pvt	Road & Wet	540	NH-48
				145	Govt/ Pvt	Road & Wet	708	Rangappa s/o Keshavaiah
				144/2	Private	Wet	70	S.S.Pradeep s/o N.Srinivasa
				144/1	Govt/ Pvt	Road & Wet	240	Kamma - Channaveeraiah
				147/3	Private	Wet	50	Nagavenamma w/o Manjunathashetty
				147/4	Private	Dry/ Wet	30	S.L.Subbaiahshetty s/o C.V.Lakshminarayana shetty
				147/5	Govt	NHAI	40	NH-48
				150	Private	Wet	30	S.L.Nagaraju s/o Nirvanashetty
		(12) Kasaba Sakaleshpur	135/4	Govt	Road		1880	1. NH-48 2. Government Hostel
			247	Govt	Dry		1012	As per RTC
			143/4	Private	Wet		960	M.B.Umesh s/o Puttegowda
			143/3	Private	Dry		820	B.Vinay s/o Devaraju
			146/2	Govt/ Pvt	Kharab & Dry		3930	Land is already acquired for NH-48
			146/1	Govt	Road		3035	Land is already acquired for NH-48
			147	Private	Planta tion		1416	B.Vinay s/o Devaraju
			148	Private	Planta tion		2833	B.S.Vidyashankar s/o Late Shivappa
			150	Private	Dry		460	B.S.Vidyashankar s/o Late Shivappa
		(13) Anemahal	36/3	Private	Planta tion		2833	1. B.D.Vivek s/o B.S.Devaraju 2. D.R.Sathish s/o D.C.Ruadregowda
			70/6	Private	Planta tion		1416	D.R.Sathish s/o D.C.Ruadregowda
			38	Govt/ Pvt	Planta tion		2930	1. Khate: Government Anubhavadars: 2. Shakeel Rahiman 3. Sahil Ahamad 4. Rashida Nasir s/o B.M.Mohammed Shafi 5. Prasannakumar s/o Padmanabha Pillai 6. Ginni Vergis s/o C.D.Vargis 7. Abdul Ravoof s/o M.C.Mohiyud 8. Basha Sab 9. Kiran 10. Shabbir
			57	Govt	Grama Thana		809	H.P.Raju s/o Puttaswamy
			66/3	Private	Planta tion		350	1. Alla Baksh s/o Jaffer Mohiyuddin 2. Anu: Nazir Ahamad s/o Jaffer Mohiyuddin
			66/2	Private	Planta tion		50	P.M.Ahamad Bhava s/o Late Hasanabba
			68/2	Private	Motu Bagayat		160	1. Keshavaraju 2. Jagadeesha 3. Shivaram s/o Minor Guardian Y.N.Padmavathi w/o Vasudevashetty (joint) 4. Khatijamma w/o Adam
			68/3B	Private	Wet		152	1. Susheelamma w/o

								Annappashetty (late)
								2. Suresha s/o Late Susheelamma
				68/3A	Private	Wet	936	N.Nagamma w/o Janardhana
				69/3	Private	Dry/ Planta tion	2380	1. Mahabalashetty s/o Ramiahshetty
								2. Ganeshashetty s/o Late Jayaramashetty
				1/4.	Private	Planta tion	40	A.D.Rakesha s/o A.S.Devaraju
				13	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	2920	Anubhava: 1. A.S.Suleman s/o Khadar Byari
								2. Lajar
								3. Iddinabba s/o Gadikhadar
								4. Abbas s/o Ahamad Byari
								5. Mahammad
								6. Safiya w/o Lathief
								7. Madarasa School
								8. Hassainar
								9. Salena w/o M.Babu
								10. Baleyamma
								11. Kuttichetti
			(14) Hallibylu	50	Private	Garden	3350	T.S.Girijamma w/o T.D.Subbanna
				41/1	Private	Garden	380	T.D.Subbanna s/o T.Devappa
				41/2	Private	Dry	506	T.D.Subbanna s/o T.Devappagowda
			(15) Kalgane	34	Private	Kharab	5200	1. D.S.Srinivasamurthy
								2. D.S.Govindaraja (Joint)
				29	Private	Dry	30	1. H.N.Theerthamurthy s/o Nirvanigowda
			2. H.N.Chandrashekar s/o Nirvanigowda					
			(16) Devihalli	30	Private	Planta tion	101	Secretary, Sambara Mandali
				29	Private	Garden	708	Secretary, Sambara Mandali
			(17) Donigalu	18/1	Private	Dry	1416	Secretary, Sambar Mandali
				15/1	Private	Dry	1518	1. D.R.Prakash s/o D.S.Rajashekar
								2. Rani Mallesh w/o Mallesh
				16	Private	Dry	1330	1. D.B.Mohan s/o Basappa
								2. Vedaraju s/o D.S.Basappa
				22/1	Private	Dry	2529	1. D.B.Vedaraju s/o D.J.Basappa
								2. D.S.Huliyappa s/o Siddegowda
								3. D.R.Prakash s/o Rajashekara
								4. Kiran Chandan w/o D.C.Chandan
								5. Puttatangiyyamma w/o Basappa
								6. D.C.Chandan s/o D.R.Chandrashekar
				22/2	Private	Dry	60	Shanta J. Hegde w/o K.Jagannatha Hegde
				60/1	Private	Dry	759	Vincent Kutinha s/o John S.Kutinha
				62	Govt/ Pvt	Kharab & Dry	2140	1. Government Gomala

							2. Bhyraiah s/o Ningaiah
							3. Manjunatha s/o Eraiah
							4. Radha w/o Raju (Anu)
							5. Huliappa
			64	Private	Dry	1150	1. D.C.Poornima w/o Late D.R.Chandrashekar
							2. Rani Mallesh w/o D.R.Mallesh
							3. D.R.Satish s/o Late D.S.Rajashekar
			61/1	Private	Dry	304	C.J.Naroni s/o Gurupadappa
			61/2	Private	Plantation/Dry	4856	G.Narayana s/o Late Govindappa
			61/3	Private	Plantation/Dry	1260	1. H.S.Devaraju s/o Late Nanjegowda
							2. H.G.Vanita Ravish w/o Late H.S.Ravish
			56	Private	Dry	120	G.Chandrashekar Ithal s/o Subbaraya Ithal
			54	Private	Dry	1416	1. Gowramma
							2. D.P.Jagadish (Joint)
			53	Private	Dry	3130	1. T.D.Basappa
							2. B.B.Jayashankara
							3. B.B.Vijayashankara
							4. B.B.Shivashankara s/o T.D.Basappa
							5. T.D.Basappa s/o Devappa
		(18) Kesagana-halli	19	Private	Dry	4249	T.D.Basappa s/o Devappa
			18	Private	Dry	830	1. B.B.Vijayashankar s/o Basappa
							2. B.B.Shivashankar s/o Basappa
			17	Private	Dry	405	P.B.Shivashankar s/o T.D.Basappa
			21	Private	Dry	5650	1. H.D.Nanjunde shwara s/o H.E.Devappa
							2. Gundegowda s/o Nanjegowda
							3. Dulraj s/o Pennalal Dramaraj
							4. H.V.Rudrappa
			15/1	Private	Dry	1180	Malini Jayanth
			15/2	Private	Dry	4957	B.Nagarajashetty s/o Sanjeevashetty
			16	Private	Dry	420	Malini Jayanth
			141/2	Private	Dry	25	Malini Jayanth
		(19) Kumbardi Coffee Estate	Nala	Govt	Nala	3845	Government Nala
			1/4	Private	Plantation	3237	1. M.V.Gopinathan s/o M.K.Vijayaraghavan
							2. B.V.Nageshkumar s/o Late B.A.Veerappa
							3. M.K.Kuruvilla s/o M.C.Kurian
							4. M.L.Patel s/o Ramadial Patel
							5. K.M.Krishnashetty s/o K.M.Shetty
							6. Shobashetty w/o K.M.Shetty
							7. Deepakshetty s/o K.M.Krishnashetty
							8. Amarnathshetty s/o K.M.Krishnashetty
							9. Ramachandra s/o Padmanabhan
			1/5	Private	Planta	3541	M.V.Gopinathan s/o

					tion		M.K.Vijayaraghavan
				1/6	Private	Planta tion	5666
							1. M.B.Gopinathan s/o M.K.Vijayaraghavan
							2. Handed over to Railway Department
				1/7	Private	Planta tion	152
							Mysore Mercantile Co. Ltd., Reptd by Santosh Kumar as Authorised signature
				1/8	Private	Planta tion	1215
							B.P.Prakash s/o Puttaswamygowda
				1/9	Private	Planta tion	1822
							C.R.Shivamma w/o Late Puttaswamygowda
Total:						641675	

[F.No.NHAI/25012/01/2011-12/PIU-BNG]

MAYA PRAKASH, Dy Secy.